



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2005 (आषाढ़ 25, 1927)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2005 (ASADHA 25, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 22 जून 2005

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2005

सं. ए-35018/2/2000-प्रशा.-2--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री ओ. पी. कौटिया, नियमित अवर सचिव, इस्पात मंत्रालय, जो कि वर्तमान में आयोग के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (परीक्षा) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको एतद्वारा 22.06.2005 के अपराह्न से उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाता है और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से इस्पात मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाती हैं।

2. इस कार्यालय की दिनांक 04.12.2001 की सम्बंधित अधिसूचना में उपरोक्तानुसार आशोधन किया जाता है।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. 2/34/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा आयोग में नियुक्त सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियमित आधार पर दिनांक 24.06.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

- (i) श्री सुब्रत दास
- (ii) श्रीमती शारदा खन्ना
- (iii) श्री प्रसान्त कुमार सिंह
- (iv) श्री अरविन्द कुमार

मांगे लात
उप सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

दिनांक 4 जुलाई 2005

सं. 2/34/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री एम. एन. शास्त्री, को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में नियमित आधार पर दिनांक 01.07.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/34/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक श्री राम पाल सिंह, को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/36/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री डाल चंद को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर दिनांक 04.07.2005 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जून 2005

सं. ई-16015/1/ईपीएल/04/कार्मिक-2/1908--ईनोर पोर्ट लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) के रूप में तीन साल के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री संजय कुमार, सीनियर कमान्डेन्ट, के.ओ.सुब ने दिनांक 03.05.2005 (अपराह्न) से सीनियर कमान्डेन्ट, के.ओ.सुब, सीएचपीटी चेन्नई, के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
चलार्थ पत्र मुद्रणालय

नासिकरोड, दिनांक 30 जून 2005

सं. 07/एस-4--चलार्थ पत्र मुद्रणालय के निम्नलिखित अधिकारी (समूह "ख" राजपत्रित), सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कारण दिनांक 30.06.2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. श्री एस. बी. कावले | उप नियंत्रण अधिकारी |
| 2. श्री ए. एस. बेलगांवकर | लेखा अधिकारी (तदर्थ) |

र. गो. भोईट
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते महाप्रबन्धक

दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. 08/एस/एस-61(प्र.अ.)--श्री वी. के. रॉय, पर्यवेक्षक, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड को प्रशिक्षण अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के पद पर स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 26.02.2005 से 30.06.2005 तक, पदोन्नत किया जाता है।

उक्त तदर्थ पदोन्नति पदोन्नत कर्मचारी को स्थाई नियुक्ति के लिए दावा अर्जित नहीं कराती और उनके द्वारा की गई तदर्थ सेवा उस श्रेणी में वरिष्ठता पदोन्नति की पात्रता आदि के लिए गिनी नहीं जाएगी।

श्री वी. के. रॉय, दिनांक 01.07.2005 से उनके पर्यवेक्षक के मूल पद का कार्य करेंगे।

र. गो. भोईट
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. प्रशासन का.आ. सं. 20--इस कार्यालय के श्री बुद्ध सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2005 (पूर्वाह्न) को भारत सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्म तिथि 01.12.1946 और नियुक्ति की तिथि 10.08.1970 है।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

रक्षा लेखा विभाग
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 जुलाई 2005

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी):--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है:--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए जाने की तारीख
सर्वश्री			
1.	टी. प्रसन्न	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
2.	के. सी. सास्त्री	21.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
3.	एस. के. कन्नौजिया	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
4.	टी. शंकर राव	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
5.	सी. एल. खंतवाल	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
6.	टी. जगन्नाथ राव	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
7.	आर. एस. चौहान	20.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
8.	एम. तिरुमाला राव	04.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
9.	हरकेश चन्द शर्मा	01.07.1945 30.06.2005	01.07.2005
10.	के. वी. श्रीरंगन	16.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
11.	के. रामचन्द्र मूर्ति	16.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
12.	जी. परमेश्वरन	27.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
13.	के. नटराजन	30.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
14.	शालिग्राम अरमारम कातकर	15.06.1945 30.06.2005	01.07.2005
15.	एस. मुथुरंगन	15.06.1945 30.06.2005	01.07.2005

कंवलदीप सिंह
रक्षा लेखा सहा. महानियंत्रक (प्रशासन)

वाणिज्य विभाग
पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय
(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 2005

सं. ए-32013/7/04/ए-6--भारत के राष्ट्रपति भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समय-मान के अधिकारी, श्री एस. के. जैन, सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन) (इंजीनियरिंग) को सेवा के वरिष्ठ समय-मान (साधारण श्रेणी) के उपनिदेशक (गुणता आश्वासन) के पद पर 10,000-325-15200 रु. के वेतनमान में उनके कार्यभार संभालने अर्थात् 16.5.2005 (पूर्वाह्न) की तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस.एस. शर्मा
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 28 जून 2005

सं. ए-19011(1-एस.पी.)/05/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री सौमेन पाल, सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) (समूह-'क' राजपत्रित) के पद पर इसी विभाग में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के वेतन में अस्थाई रूप में 15.04.2005 के अपराह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. ए-19012(1-एन.के.एन.)/02/19ए--भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा श्री नीरोद कुमार नायक को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1 (समूह-'ख' राजपत्रित) के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में अस्थाई रूप में 16.11.2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. ए-19012(1-आर.पी.एस.)/02/19ए--भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा श्री राधवेन्द्र प्रताप सिंह को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-1 के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में

रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान के वेतन में अस्थाई रूप में 30.03.2005 के पूर्वाह्न से प्रभावित नियुक्त किया जाता है।

एस.के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 16 जून 2005

सं. ए-19011/562/2005-स्था. ए.पी.पी.--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने पर श्री के. टी. साधवानी, सहायक भंडार अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो से 01.06.2005 के पूर्वाह्न में कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-11, दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. 10/2/2005-स्मा.--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं डी. आर. गेहलोत, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा निदेश देता हूँ कि श्री जगदम्बा और महाकाली के बोनाही उत्सव के अवसर पर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक गोलकोण्डा किला, हैदराबाद में 07.07.2005 से 04.08.2005 तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डी. आर. गेहलोत
निदेशक (स्मारक)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-85, दिनांक 14 जून 2005

सं. पीडी/7(21)/2004-आर-4/673--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों ग्रेड 'सी' के रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में 1 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से, श्री पी. रघुकुमार, क्रम संख्या 12 एवं श्री एस. आर. प्रसाद, क्रम संख्या 17 जिनकी नियुक्ति तिथियाँ क्रमशः अगस्त 9, 2004 एवं अगस्त 7, 2004 के पूर्वाह्न से हैं, को छोड़कर आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	सक्सेना मदन मोहन	एसए/डी
2.	शाजी सी. कुमार	एसबी

1	2	3
	सर्वश्री	
3.	चव्हाण आर. बी.	एसबी
4.	शर्मा विजय	एसबी
5.	कल्याण पी.	एसए/डी
6.	परमशिवन के.	एसबी
7.	शर्मा सुमन श्रीमती	एसबी
8.	अभय कुमार	ट्रेड्समन/डी
9.	बालसुब्रह्मण्यम चतनारी	एसए/डी
10.	जॉन्सन सी. जी.	एसबी
11.	पुरुषोत्तम बी.	एसबी
12.	रघुकुमार पी.	एसबी
13.	राठोड नंद किशोर	एसबी
14.	सिंह पवन कुमार	एसबी
15.	शिवशंकरन के.	एसए/डी
16.	कुरकुंडी जे. एच. डॉ. (कुमारी)	एसबी
17.	प्रसाद एस. आर.	एसए/डी
18.	संकेश राम	एसबी
19.	तिवारी ए. के.	एसबी
20.	सगायराज एल. कासिमिर	एसबी
21.	रंजित सेन	एसबी
22.	मनोज कुमार	एसबी
23.	पाटिल एस. पी.	एसबी
24.	गायकवाड़ वी. जी.	एसए/डी
25.	पटेल ए. जे.	एसए/डी
26.	अरविंद कुमार	एसबी
27.	कोरे एस. जी.	एसए/डी

पी. वेणुगोपालन
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 27 जून 2005

सं. 7/2(6)/2005-एसयूएस/4702--राष्ट्रपति, श्री सतिश कुमार सैनी को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में रु. 10,000-325-13,500/- के वेतनमान में मूल वेतन रु. 10,000/- पर दिनांक 31.05.2005 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

सं. 7/2(6)/2005-एसयूएस/4703--सञ्चालित, श्री संजय रघुनाथ बागुल को इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय में रु. 10,000-325-13,500/- के वेतनमान में मूल वेतन रु. 10,000/- पर दिनांक 06.05.2005 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 24 जून 2005

सं. क्रभनि/10002/भर्ती/2620--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय लेखा एकक, क्रभनि, मुम्बई की सहायक लेखाकार श्रीमती के. एस. विजयलक्ष्मी को इसी निदेशालय में दिनांक 02.05.2005 (पूर्वाह्न) से 03.06.2005 (अपराह्न) तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे
प्रशासनिक अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 24 जून 2005

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2004/634--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री कवासेसी नारायणन रमेश, वैज्ञानिक सहायक/सी भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) को दिनांक 01 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी के पद पर इसी कार्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. अप्पा राव
प्रशासन अधिकारी

दिनांक 29 जून 2005

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-म/2005/646--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री वेलगापुडी श्रीमन्नारायणा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) को दिनांक 01 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से दिनांक 10 अप्रैल, 2005 (अपराह्न) तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. अप्पा राव
प्रशासन अधिकारी

मुम्बई-400094, दिनांक 30 जून 2005

सं. भापाबो/भर्ती/4(30)/2005/648--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री भानुदास तुकाराम मोरे, वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी, भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) को दिनांक 01 अगस्त, 2001 से आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर उसी कार्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. के. सैनी
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 21 जून 2005

सं.नाईस/प्रशा./पें./का.कू. 0796/586--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी.ए. गोपीनाथन, वैज्ञानिक अधिकारी/ई (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2005 से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. पाप्पचन
प्रशासनिक अधिकारी

सं.नाईस/प्रशा./पें./का.कू. 2301/587--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री वी. चन्द्रमौली, वैज्ञानिक अधिकारी/ई (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2005 से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. पाप्पचन
प्रशासनिक अधिकारी

हैदराबाद-500062, दिनांक 01 जुलाई 2005

सं.नाईस/काप्रभ-II/2-2005/1568--मुख्य कार्यपालक, एनएफसी; नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के श्री जी. सत्यनारायणा, वैज्ञानिक सहायक 'सी' को इसी इकाई में, स्थानापन्न हैसियत में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एसबी' (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-) के रूप में दिनांक 01.02.2005 से आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जून 2005

संख्या: ए-19015/1/87-स्था.2--नागर विमानन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय के श्री पी.डी. पदमनाभन, अनुभाग अधिकारी

के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अन्तर्गत दिनांक 1.7.2005 (पूर्वाह्न) से स्थापना आदेश दिनांक 8.6.2005 सं. 33/2005 द्वारा स्वीकृत किया गया और श्री पी. डी. पदमानाभन, अनुभाग अधिकारी को नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय 1.7.2005 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है :

चानन राम
प्रशासन उपनिदेशक

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 10 जून 2005

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री वी. श्रीधरन, वरिष्ठ निजी सचिव, आयकर अपीलीय अधिकरण चैन्नई पीठें, चैन्नई, निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 मई, 2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गये।

विमल गाँधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेघाशा ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 मई 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/05/32652--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स मेघाशा ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/88127/9013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स प्राग होटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रोसपोर्ट हैन्डलिंग फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/43770/9028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स क्रोसपोर्ट हैन्डलिंग फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इटर्नल इन्फोसल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/100930/9075--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स इटर्नल इन्फोसल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिस्कवरी फुल सर्कल टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/110864/9079--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स डिस्कवरी फुल सर्कल टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो

रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीफिन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/41793/9087--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सीफिन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खादेस साहा कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/30656/9119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स खादेस साहा कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोना मिगमा फाऊन्डरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/05/31718/9095--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सोना मिगमा फाऊन्डरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिद्धान्त हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/115351/9124--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धान्त हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तनेजा सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/76875/9100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स तनेजा सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेनन एण्ड मेनन मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/128718/9129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स मेनन एण्ड मेनन मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो

रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माला होटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/05/31237/9135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स माला होटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स द्विवेदी लॉ आफिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/124187/9150--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स द्विवेदी लॉ आफिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐडरोक्स प्रिन्ट-ओ-पैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/106132/9136--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स ऐडरोक्स प्रिन्ट-ओ-पैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सान ब्रादर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/114678/9151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सान ब्रादर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. एस. के. पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/33237/9141--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स एम. एस. के. पॉलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम प्रकाश एण्ड एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/6393/9156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स ओम प्रकाश एण्ड एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड का

नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मधू चावला प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/13022/9161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स मधू चावला प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वल्लभ रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/55/40107/9166--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स वल्लभ रिफाइनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीन बन्धु चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 जून 2005

सं. 560(3)/एसईएस/2005/05/30177/9172--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स दीन बन्धु चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स बी. एन. सर्विसेज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 28 जून 2005

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./16883/984--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एन. सर्विसेज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स द्वारिकेश एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 29 जून 2005

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./17231/989--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स द्वारिकेश एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कानपुर ब्लक ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर, दिनांक 29 जून 2005

सं. एल.सी./560(3)/6941/991--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कानपुर ब्लक ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बंसल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हाई-टेक फोर्ज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 29 जून 2005

सं. आर.ओ.सी./560/4096/1077--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स हाई-टेक फोर्ज लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स पाथ वेज पर्सनल डेवलपमेन्ट स्किल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 29 जून 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15002/1081--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स पाथ वेज पर्सनल डेवलपमेन्ट स्किल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वेन्स इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर, दिनांक 29 जून 2005

सं. आर.ओ.सी./560/1090--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स वेन्स इण्डिया लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नयन पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 20 अप्रैल 2005

सं. आर.ओ.सी.-जी/7580/धारा 560(3)/9125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स नयन पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डॉ. राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक 1 जुलाई 2005

सं. आईपीसी/560/मास्टर फाइल 2/एसईएस 2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित 965 कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	52850	मैसर्स ए एण्ड ए प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	81663	मैसर्स ए एम टी लिमिटेड
3.	52933	मैसर्स ए एम डी टिम्बर एण्ड वेनियर प्राईवेट लिमिटेड
4.	39159	मैसर्स ए एन कंक्रिट प्राईवेट लिमिटेड
5.	47378	मैसर्स ए टी ट्रेकफास्टर्नस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
6.	84488	मैसर्स आपनजन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	89331	मैसर्स आरपी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
8.	70503	मैसर्स आरवी कोमोडोल प्राईवेट लिमिटेड
9.	73207	मैसर्स आशियाना सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	62882	मैसर्स आवेरी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	58466	मैसर्स एबीसी टेक्सटाईल्स प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	77602	मैसर्स अभिसेख इन्ट्रा प्राईवेट लिमिटेड
13.	81073	मैसर्स आभू फैब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
14.	40816	मैसर्स एबल कंसल्टेन्ट्स फिनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	40.	40709	मैसर्स एग्रो फ्रिजर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	57876	मैसर्स एबीएम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	41.	73276	मैसर्स अहमदाबाद जलधारा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	85066	मैसर्स एकलौंड डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड	42.	58829	मैसर्स अजन्ता पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	55657	मैसर्स एकोर्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	67387	मैसर्स अजगाला लेदर प्राईवेट लिमिटेड
18.	78683	मैसर्स एक्युमेन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	44.	79996	मैसर्स एकेडी कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
19.	58012	मैसर्स ऐस कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	45946	मैसर्स अलमोड हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	43621	मैसर्स अच्छ मकान प्राईवेट लिमिटेड	46.	50729	मैसर्स अल्फा एडवाइजरी एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	40400	मैसर्स एक्युप्रेसर थेरेपी हेल्थ सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	47.	58638	मैसर्स अल्फा डीमीट्रीज शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
22.	51016	मैसर्स एक्युशला लेदर क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड	48.	76325	मैसर्स एलिस टाइप प्राईवेट लिमिटेड
23.	36553	मैसर्स आदम एण्ड इव प्राईवेट लिमिटेड	49.	87859	मैसर्स ऑल सीजनस एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
24.	33196	मैसर्स एडिटिक्स एण्ड पिजर्वेक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	50.	84387	मैसर्स आलक्रेडिट फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
25.	72743	मैसर्स एदेशरा जेवेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	37601	मैसर्स एलायड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	62250	मैसर्स आदिगम कोम्मोडीटीज लिमिटेड	52.	88017	मैसर्स एलायड वाटरप्रूफिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
27.	57856	मैसर्स आदित्य इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	53.	69252	मैसर्स आललाइक कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
28.	90047	मैसर्स आदित्य मुरारका एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	54.	88257	मैसर्स अल्टर इगो प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
29.	79896	मैसर्स एडमायर कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	55.	52996	मैसर्स एएम कंसल्टेन्ट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	76326	मैसर्स एडमायर विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड	56.	47130	मैसर्स आमार एक्सिस इन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
31.	47033	मैसर्स एडीपी ऑफिस इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	37345	मैसर्स आमार कोक प्राईवेट लिमिटेड
32.	87910	मैसर्स एडीएस एक्जुआटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	33028	मैसर्स अम्रीत डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	90161	मैसर्स एडवैता इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	59.	30273	मैसर्स अमरोप्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
34.	89925	मैसर्स एडवान्टेज मिलेनियम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	60.	69738	मैसर्स अनाभी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
35.	41002	मैसर्स अग्रवाल रोपस एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	94709	मैसर्स अनामिका रबड़ प्राईवेट लिमिटेड
36.	54673	मैसर्स अग्नि उजाला इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	28802	मैसर्स अनामिका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	42670	मैसर्स अगरानी कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	63.	50697	मैसर्स आनन्द ग्रीन लिक्स लिमिटेड
38.	79824	मैसर्स एग्रिको क्वालिटी प्राईवेट लिमिटेड	64.	45271	मैसर्स आनन्द इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	14408	मैसर्स एग्रिकल्चरल मशीनरी एमएफजी कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड	65.	42147	मैसर्स आनन्दा आश्रम प्राईवेट लिमिटेड
			66.	50252	मैसर्स अनापोल रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
			67.	45892	मैसर्स अन्नोरा फर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
68.	69938	मैसर्स अनिहोन कर्माशियल प्राईवेट लिमिटेड	98.	69829	मैसर्स आस्नाल्ड सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	40390	मैसर्स अनिरबान कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	99.	84257	मैसर्स अरोमा इन्जीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
70.	69049	मैसर्स अनिरबान टाई-अप प्राईवेट लिमिटेड	100.	59699	मैसर्स अरोरा एसोसिएट एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	34988	मैसर्स अन्जानेया इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	101.	51457	मैसर्स अरोरा लोटेरिज प्राईवेट लिमिटेड
72.	75822	मैसर्स अंकित मर्केनटाईल प्राईवेट लिमिटेड	102.	79285	मैसर्स आरपी ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
73.	43203	मैसर्स अंकुर रसायन उद्योग प्राईवेट लिमिटेड	103.	36688	मैसर्स आरथाबास उद्योग (इन्वेस्टमेंट) प्राईवेट लिमिटेड
74.	79770	मैसर्स अंकुर ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	104.	71326	मैसर्स आर्टवर्क प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	85755	मैसर्स ए.एन.एम. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	105.	69765	मैसर्स असंभव केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
76.	85927	मैसर्स ए.एन.एम. सेकुरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	106.	86162	मैसर्स अस्कोट प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
77.	71729	मैसर्स एन्टास इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	107.	90639	मैसर्स आशा प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड
78.	36753	मैसर्स अन्तरंग प्रकाशनी प्राईवेट लिमिटेड	108.	82652	मैसर्स आशा कुंज ट्रेडलिंक प्राईवेट लिमिटेड
79.	81535	मैसर्स अन्टीक्यु फर्न प्राईवेट लिमिटेड	109.	75846	मैसर्स असीम कुमार कर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
80.	88574	मैसर्स अनुराधा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	110.	76923	मैसर्स आशिर्वाद मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
81.	84955	मैसर्स अनुराग डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	15346	मैसर्स आशुतोष आयुर्वेद एण्ड केमिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	77808	मैसर्स अनुव्रत फैशनस प्राईवेट लिमिटेड	112.	48532	मैसर्स आश्वथ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
83.	67383	मैसर्स अपेक्षा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	69766	मैसर्स अस्काईपैक सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड
84.	55293	मैसर्स एपीजी कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	42675	मैसर्स असोपा ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	44785	मैसर्स एपोलो ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	115.	59917	मैसर्स असोपा मर्केनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
86.	34482	मैसर्स एप्पलियांसेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	116.	86281	मैसर्स एसोसियेटेड फ्रेट कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
87.	61249	मैसर्स एप्पी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	117.	71251	मैसर्स एस्ट्रा फाइनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
88.	69732	मैसर्स एप्टीका मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	60180	मैसर्स ए टी आई एक्सपोर्ट लिमिटेड
89.	78557	मैसर्स एक्युआ फ्रेश प्राईवेट लिमिटेड	119.	47520	मैसर्स एटलान्टेस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
90.	76716	मैसर्स आरती सेल्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	120.	37811	मैसर्स एटलस कर्माशियल प्राईवेट लिमिटेड
91.	42936	मैसर्स अरावली पैकर्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	34613	मैसर्स एटमाइट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
92.	81061	मैसर्स अरहम कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	39166	मैसर्स एटेयर सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	79990	मैसर्स एरियकोम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	41966	मैसर्स अतुल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
94.	69110	मैसर्स अरिहन्ट सिन्थेटिक्स एण्ड फाईब्रेस प्राईवेट लिमिटेड	124.	59579	मैसर्स ऑकलैण्ड अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	87746	मैसर्स अरिता इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	125.	64956	मैसर्स औरिका प्रिन्ट ओ ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
96.	90292	मैसर्स एआरके प्रोग्रेसन प्राईवेट लिमिटेड	126.	62860	मैसर्स अव-फेद एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
97.	69836	मैसर्स आरनाल्ड डीलींग प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
127.	46727	मैसर्स अवध मेकेनिकल प्रोजेक्स एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	67267	मैसर्स अवन्त ग्रेड इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	27550	मैसर्स अवेरी स्केल्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	27551	मैसर्स अवेरी टेस्टिंग मशीन प्राईवेट लिमिटेड
131.	27552	मैसर्स अवेरी बेगिंग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	57211	मैसर्स एवियाज एक्सपोर्ट इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
133.	15279	मैसर्स बी सी सेन प्राईवेट लिमिटेड
134.	42645	मैसर्स बी ए बी मेडिको लिमिटेड
135.	59454	मैसर्स बी बी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	37383	मैसर्स बी बी सी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
137.	90567	मैसर्स बी एन पॉलिपैक प्राईवेट लिमिटेड
138.	62467	मैसर्स बाभनान ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	56790	मैसर्स बागला कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	84344	मैसर्स बैद एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
141.	84682	मैसर्स बैद कोमुटेक प्राईवेट लिमिटेड
142.	56644	मैसर्स बैद फिनकोन लिमिटेड
143.	84683	मैसर्स बैद इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
144.	27925	मैसर्स बाजना रिफ्रेक्टोरिज प्राईवेट लिमिटेड
145.	75433	मैसर्स बाजोरिंग फोटोग्राफिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
146.	91697	मैसर्स बालागढ़ ऑपरेटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
147.	86881	मैसर्स बालाजी बायो एग्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	85423	मैसर्स बालाजी ट्रेकॉन प्राईवेट लिमिटेड
149.	94748	मैसर्स बलराम वेब-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
150.	16998	मैसर्स बल्लभदास अग्रवाल लिमिटेड
151.	14012	मैसर्स बालसुख रिफ्रेक्टोरिज एण्ड सेरामिक्स लिमिटेड
152.	66834	मैसर्स बमब्रह्म प्लानेटेशन प्राईवेट लिमिटेड
153.	47805	मैसर्स बैण्ड बॉक्स कर्मर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
154.	32685	मैसर्स बानी-लोन रिसर्च केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
155.	63676	मैसर्स बंसराज फाइनान्स लिमिटेड
156.	37460	मैसर्स बार्क मैनेजमेन्ट कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	34735	मैसर्स बरिशा सिविकेम प्राईवेट लिमिटेड
158.	34705	मैसर्स बर्नगोरे जूट फैक्टरी कम्पनी लिमिटेड
159.	65416	मैसर्स बैरी फेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	17867	मैसर्स बरूआ आर्ट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
161.	95186	मैसर्स बारूईपुर पैन्ट्स गार्डन प्राईवेट लिमिटेड
162.	69209	मैसर्स बासु राय कंस्ट्रक्शन्स एण्ड कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
163.	33101	मैसर्स बाथीवाला एण्ड करानी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	86070	मैसर्स बीबीएस इन्फोरमोटेक प्राईवेट लिमिटेड
165.	59275	मैसर्स बीडीए होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	35244	मैसर्स बीयर एण्ड बुल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
167.	81360	मैसर्स बेल्ल कंट्रोल्स फाइनान्स लिमिटेड
168.	59740	मैसर्स बेंगाल एग्रो फार्म एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
169.	12149	मैसर्स बेंगाल बिहार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
170.	86961	मैसर्स बेंगाल केन्स एण्ड कॉन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	10213	मैसर्स बेंगाल इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड
172.	65662	मैसर्स बेंगाल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
173.	69411	मैसर्स बेंगाल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
174.	56925	मैसर्स बेंगाल सेविंग्स ओरगेनाइजेशन लिमिटेड
175.	31516	मैसर्स बेंगाल स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	87328	मैसर्स बेंगाल वाटरवेज प्राईवेट लिमिटेड
177.	60563	मैसर्स भगवानदास कानाइलाल(एजेन्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड
178.	78321	मैसर्स भाग्यदीप कोमोडील प्राईवेट लिमिटेड
179.	49451	मैसर्स भाग्यश्री ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
180.	87421	मैसर्स भारत बीड़ी फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
181.	48101	मैसर्स भारत बिस्कुट कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
182.	25284	मैसर्स भारत वायर एण्ड मेटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	15456	मैसर्स भारती इन्वेस्टमेंट एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
184.	88793	मैसर्स भारतीय कृषि विकास प्राईवेट लिमिटेड
185.	36292	मैसर्स भार्गव सन्स पेपर प्राईवेट लिमिटेड
186.	55411	मैसर्स भास्कर क्रेडिट एण्ड मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
187.	8018	मैसर्स भट्टाचार्या सन्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	69946	मैसर्स भुवनेश्वरी चिन्तराम प्राईवेट लिमिटेड
189.	76419	मैसर्स भूसागा रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
190.	79576	मैसर्स भुतरा कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
191.	43292	मैसर्स बिल फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	74300	मैसर्स बीना कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
193.	88103	मैसर्स बीरादा इन्जोनियरिंग एमोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	71851	मैसर्स बिरला इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
195.	52603	मैसर्स बिरला-डीपीएल स्टीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
196.	71321	मैसर्स बिष्णुपद लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कं. प्राईवेट लिमिटेड
197.	49275	मैसर्स बीकेपी फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
198.	76411	मैसर्स ब्लैक एण्ड ब्राइट फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	49152	मैसर्स ब्लैक डायमण्ड कार्गो मुवर्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	64551	मैसर्स ब्लैक ओपल प्रोपर्टीज एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
201.	76006	मैसर्स ब्लैक पैन्थर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
202.	62275	मैसर्स ब्लोप्लास्ट पेपर प्राईवेट लिमिटेड
203.	88033	मैसर्स ब्लू बर्ड कुरियर प्राईवेट लिमिटेड
204.	73922	मैसर्स ब्लू स्काईज कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
205.	46534	मैसर्स ब्लू स्टार शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
206.	93884	मैसर्स बोदरा प्लास्टोकेम प्राईवेट लिमिटेड
207.	43847	मैसर्स बोल पोल प्राईवेट लिमिटेड
208.	67479	मैसर्स बोलेरा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	57544	मैसर्स बोनाफाइड क्रेडिट एण्ड सेविंग्स कम्पनी लिमिटेड
210.	56268	मैसर्स बोर्निओ शिपिंग (एनडी) प्राईवेट लिमिटेड
211.	31363	मैसर्स बोस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	86020	मैसर्स बोस रिसोर्ट एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	76872	मैसर्स बोवमैन कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
214.	75455	मैसर्स बीआरडी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
215.	26404	मैसर्स ब्राइट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	83098	मैसर्स ब्रिजधाम कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
217.	64415	मैसर्स ब्रिजधाम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	92622	मैसर्स ब्राडबैंड केबलकॉम लिमिटेड
219.	41711	मैसर्स बीएससी अर्पाटमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	49784	मैसर्स बीएससी लिजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड
221.	47110	मैसर्स बीएसविल्लर (लिफ्ट) प्राईवेट लिमिटेड
222.	38141	मैसर्स बड़ा बाजार केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	54607	मैसर्स बुश इस्को टी प्राईवेट लिमिटेड
224.	64350	मैसर्स सी एस एम पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	36245	मैसर्स सीएडी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	27634	मैसर्स कलकत्ता एण्ड काश्मीर ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
227.	85906	मैसर्स कलकत्ता ग्रीन रिट्रिट एण्ड लैण्ड डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
228.	81304	मैसर्स कलकत्ता लैण्ड मार्क कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
229.	11270	मैसर्स कलकत्ता मेटल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
230.	87687	मैसर्स कलकत्ता सॉफ्टवेयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
231.	19373	मैसर्स कलकत्ता स्टीमर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
232.	28484	मैसर्स कलकत्ता टी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	44247	मैसर्स चिंगा वाह एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
233.	41329	मैसर्स कैलफूड्स प्राईवेट लिमिटेड	259.	85955	मैसर्स चोखानी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
234.	58585	मैसर्स कैलियन्टे सिस्टम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	260.	21738	मैसर्स छोटानागपुर मिनेरल्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
235.	92095	मैसर्स कैलसॉफ्ट डिजिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	261.	60667	मैसर्स चौधरी फिनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
236.	87877	मैसर्स कैलटेक केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	68619	मैसर्स सीएचएस होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	44604	मैसर्स कैन कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	263.	30493	मैसर्स सिविका सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	53541	मैसर्स कैन फिनवेस्ट कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	264.	79692	मैसर्स क्लासिक डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	37181	मैसर्स केनाकोना कर्माश्रयल प्राईवेट लिमिटेड	265.	22395	मैसर्स क्लेटोन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
240.	60206	मैसर्स कैनडोर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	266.	65694	मैसर्स कम्पाइन्ड प्रोफेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	49664	मैसर्स कैन्थर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	267.	37890	मैसर्स कम्फोर्ट केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	53989	मैसर्स कैप-एड फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	268.	36168	मैसर्स कोमिन्ड केयर एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	65327	मैसर्स कैप्रिकोर्न होम्स प्राईवेट लिमिटेड	269.	87258	मैसर्स कॉमनकार्प ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
244.	32638	मैसर्स केरावन ट्रेवल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	270.	61516	मैसर्स कम्प्यूटिंग सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
245.	53566	मैसर्स केयर कैपीटल मार्केट प्राईवेट लिमिटेड	271.	25838	मैसर्स कॉमट्रेको (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
246.	84831	मैसर्स केरोल कंस्ट्रक्शन्स एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	272.	46691	मैसर्स कॉमि इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	62273	मैसर्स कैस्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	273.	63317	मैसर्स कोनेम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	92908	मैसर्स कैटेलेया इन्फोटेक इण्डिया लिमिटेड	274.	64416	मैसर्स कनेक्ट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
249.	84692	मैसर्स सीबीआर एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	275.	93636	मैसर्स कनक्वेस्ट इन्सुरेन्स एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
250.	79686	मैसर्स सेन्चुरी कोम्मोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड	276.	59167	मैसर्स कन्सोलिडेटेड इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
251.	43573	मैसर्स चन्दा पलावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	277.	87202	मैसर्स कन्सोर्टियम फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड
252.	40176	मैसर्स चन्दौसी राइस मिल्स लिमिटेड	278.	44667	मैसर्स कंसल्टेन्ट्स एण्ड रिसर्च ब्यूरो ऑफ इन्डस्ट्री ट्रेड एण्ड एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
253.	22347	मैसर्स चन्डी चरण मित्रा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	279.	90572	मैसर्स कंट्रेक्ट सॉफ्टवेयर सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
254.	59026	मैसर्स चन्डीसन्स (इन्टेरियल्स) प्राईवेट लिमिटेड	280.	24698	मैसर्स कंट्रेक्ट सप्लाय एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
255.	11224	मैसर्स चारू चन्द्र इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	281.	63308	मैसर्स कुलग्रेडिआ मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
256.	53441	मैसर्स छावड़ा इन्टरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड	282.	87631	मैसर्स कोरनाटो कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
257.	78556	मैसर्स चिलका मैरिन सीफूड्स प्राईवेट लिमिटेड	283.	90160	मैसर्स कोरोना फेब्रिकॉन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
284.	66581	मैसर्स कोरोगेनान फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	311.	48434	मैसर्स दी के कम्प्यूटर्स एण्ड डाटा कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
285.	42705	मैसर्स कॉस्मोपोलिटन लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	312.	30218	मैसर्स दीपक रबड़ इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
286.	80424	मैसर्स क्रा फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	313.	88524	मैसर्स डेलाइट कम्प्लेक्स मेनटेनेन्स लिमिटेड
287.	81150	मैसर्स क्रोजी फाइनांसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	314.	49097	मैसर्स डरबी पेट्रोकार्बन लिमिटेड
288.	91925	मैसर्स क्रिएटिव कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड	315.	49096	मैसर्स डरबी रेयॉन लिमिटेड
289.	85626	मैसर्स क्राइम कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड	316.	78390	मैसर्स डेटन इलेक्ट्रीकल एण्ड कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
290.	65891	मैसर्स क्रिस क्रॉस फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	317.	83956	मैसर्स डेक्सटेरस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	81501	मैसर्स क्रॉस रोड कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	318.	97186	मैसर्स डे ऑटो पार्क प्राईवेट लिमिटेड
292.	48313	मैसर्स क्रिस्टल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	319.	49453	मैसर्स धनश्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	84501	मैसर्स साइबर डाटा सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	320.	91420	मैसर्स धड़कती दुनिया पब्लिकेशन लिमिटेड
294.	68990	मैसर्स सिग्नेट व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	321.	56046	मैसर्स ध्रुवको इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
295.	91102	मैसर्स साइटेक-कॉम प्राईवेट लिमिटेड	322.	92716	मैसर्स डिजिटल नेट स्ट्रीम.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
296.	15638	मैसर्स डीसी सेठिया प्राईवेट लिमिटेड	323.	91054	मैसर्स डिजिटैक्स इन्फोवे प्राईवेट लिमिटेड
297.	88830	मैसर्स डी ई इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	324.	41943	मैसर्स दिनयोग सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	45132	मैसर्स डी पी एस डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	325.	45393	मैसर्स दीपाली सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड
299.	48688	मैसर्स डी एस आर टर्न-की इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	326.	91625	मैसर्स दीफु प्लाईवुड मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड
300.	72175	मैसर्स डी जे सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड	327.	91977	मैसर्स डिस्काउंट इन्फोलाइन.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
301.	53407	मैसर्स डी रूयेन्जी (लिकर) प्राईवेट लिमिटेड	328.	50151	मैसर्स डिस्नीलैंड फैनसी लिमिटेड
302.	78675	मैसर्स डेफोडील कॉम्पटेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	329.	69606	मैसर्स डिस्टेन्ट बिन-कॉम प्राईवेट लिमिटेड
303.	69734	मैसर्स दामका व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	330.	94464	मैसर्स डिस्ट्रीन्कटिव ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	9035	मैसर्स दामोदर कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	331.	94778	मैसर्स डियुरनल एप्लीयेन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
305.	29157	मैसर्स डंडा ब्रस प्राईवेट लिमिटेड	332.	80921	मैसर्स दिव्य दृष्टि कम्पोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
306.	57488	मैसर्स दसमेश फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड	333.	63120	मैसर्स दिव्य सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
307.	28945	मैसर्स डटसन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	334.	89159	मैसर्स डीएनके फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
308.	90737	मैसर्स डेविस मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड	335.	91904	मैसर्स डोमिनो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
309.	91760	मैसर्स देबलिना शेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	336.	60211	मैसर्स डोव कन्क्लेव प्राईवेट लिमिटेड
310.	79134	मैसर्स डिसिजन सपोर्टिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	337.	57449	मैसर्स डीपीबी केम्फैब फायर प्रोटेक्शन प्राईवेट लिमिटेड
			338.	81308	मैसर्स ड्रीम ऑरचर्ड लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
339.	18973	मैसर्स ड्रम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	368.	92116	मैसर्स इनिग्मा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
340.	68538	मैसर्स डुलासन मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	369.	38626	मैसर्स इन्पल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
341.	84997	मैसर्स डुराकॉन्ट प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	370.	82640	मैसर्स इन्प्रो इस्टेट्स लिमिटेड
342.	83134	मैसर्स दुर्गापुर एश एण्ड एलॉयड गुड्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	371.	64251	मैसर्स इन्सा कंसल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
343.	70706	मैसर्स दुर्गेश ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	372.	77692	मैसर्स इष्कॉन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
344.	82073	मैसर्स दत्ता घोष एण्ड एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड	373.	74129	मैसर्स इपिका डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड
345.	77635	मैसर्स द्वारका फाइनेन्शियल रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड	374.	69827	मैसर्स इरोड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
346.	76865	मैसर्स डायनेमिक फिन्क्म प्राईवेट लिमिटेड	375.	33187	मैसर्स इरोस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
347.	72731	मैसर्स ई के आइसोलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	376.	46566	मैसर्स इशा ट्रेड्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
348.	53390	मैसर्स ईगल कोल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	377.	76879	मैसर्स इस्से तार एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
349.	89158	मैसर्स ईस्ट कोस्ट एकजीम प्राईवेट लिमिटेड	378.	86550	मैसर्स इस्सेम प्रोजेक्ट्स एण्ड इस्टेट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
350.	65849	मैसर्स ईस्ट वेस्ट प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	379.	33533	मैसर्स इस्सेन सिन्थेटिक्स (गाजियाबाद) प्राईवेट लिमिटेड
351.	53465	मैसर्स ईस्ट-प्वाइंट कुरियर प्राईवेट लिमिटेड	380.	75821	मैसर्स इस्सेक मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड
352.	77455	मैसर्स ईस्टर्न काओलिनस प्राईवेट लिमिटेड	381.	65951	मैसर्स इस्सपी इलेक्ट्रो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
353.	28574	मैसर्स ईस्टर्न मार्केटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	382.	82074	मैसर्स इस्टेक टेक ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
354.	28371	मैसर्स ईस्टर्न रोल्ल एण्ड स्टील टेप्स प्राईवेट लिमिटेड	383.	24217	मैसर्स यूरेका एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
355.	76466	मैसर्स ईस्टर्न स्पाइनर्स लिमिटेड	384.	80526	मैसर्स एवरब्राइट मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
356.	30696	मैसर्स इफेक्टिव सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	385.	63263	मैसर्स एवरेस्ट अधेसिव्स प्राईवेट लिमिटेड
357.	69835	मैसर्स एकचक्र विनिमय प्राईवेट लिमिटेड	386.	61481	मैसर्स एवरेस्ट इन्डस्ट्रीयल एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
358.	40481	मैसर्स एकसन्स मेडिसिनल प्राईवेट लिमिटेड	387.	88260	मैसर्स एवरीडे फूड प्राईवेट लिमिटेड
359.	61703	मैसर्स एलान लेदर एसेसरीज प्राईवेट लिमिटेड	388.	45354	मैसर्स एकजीन्ट टी ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	49992	मैसर्स एल्कॉन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	389.	17523	मैसर्स एक्सपर्ट एजेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
361.	51142	मैसर्स एल्डॉट कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	390.	45457	मैसर्स एक्सपोजर (इण्डिया) जेम्स एण्ड ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
362.	94758	मैसर्स एलाइट सिमेन्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	391.	17215	मैसर्स एक्सप्रेस प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
363.	44695	मैसर्स एम्बीकॉन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	392.	69837	मैसर्स एक्सपेडियर मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
364.	59578	मैसर्स ईएमसी रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	393.	35103	मैसर्स एक्सट्रुसन्स एप्रो ड्रेनेज लिमिटेड
365.	76019	मैसर्स इमराल्ड मैनेजमेंट लिमिटेड	394.	84221	मैसर्स एफ पी फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
366.	72476	मैसर्स इमेरी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	395.	56624	मैसर्स फेब्रिडोल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
367.	85113	मैसर्स एम्पायर ड्राइविंग इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
396.	60132	मैसर्स फैजी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	421.	81901	मैसर्स डी जी कान्टेक्ट इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	60207	मैसर्स फौलकॉन इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	422.	74149	मैसर्स जी डी एस होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	56981	मैसर्स फेव फिनवेस्ट इण्डिया लिमिटेड	423.	65282	मैसर्स जी वी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	38439	मैसर्स फर्न इलेक्ट्रोमेक एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	424.	30893	मैसर्स गदोदिया प्राईवेट लिमिटेड
400.	65443	मैसर्स फाइवस्टार सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	425.	67386	मैसर्स गगन कैबिनेट प्राईवेट लिमिटेड
401.	85588	मैसर्स फ्लैड कंसट्रक्शन कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	426.	53724	मैसर्स गजमुक्ता ट्रेड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	94879	मैसर्स फलैगशिप इवेन्ट्स एण्ड इन्टरटेन्मेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	427.	61155	मैसर्स गमुत कम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड
403.	81586	मैसर्स फलेमिनो इन्फोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	428.	61463	मैसर्स गणपति वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
404.	81587	मैसर्स फलेमिनो सिस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड	429.	20627	मैसर्स गंगा कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
405.	24494	मैसर्स फलेक्स-ट्यूब प्राईवेट लिमिटेड	430.	86698	मैसर्स गोर्डेन फार्म न्यूट्रीटीव प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
406.	54892	मैसर्स फलोवेल रबड़ एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	431.	88994	मैसर्स गार्डेन जूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
407.	51231	मैसर्स एफएलटी-एएमबी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	432.	69834	मैसर्स गार्गी व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
408.	60848	मैसर्स फलुड टेक्निक प्राईवेट लिमिटेड	433.	75483	मैसर्स गतनी फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
409.	82829	मैसर्स फोरसम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	434.	90270	मैसर्स गौरी गणेश मिल प्राईवेट लिमिटेड
410.	88445	मैसर्स फोरच्यून फ्युजन कम्पोजिट प्राईवेट लिमिटेड	435.	58886	मैसर्स गौरजा फिनकॉन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
411.	78290	मैसर्स फोटो मैन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	436.	89562	मैसर्स जीडीएम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
412.	87953	मैसर्स फोर कलर कम्प्यूनिक्शन प्राईवेट लिमिटेड	437.	80544	मैसर्स जी पी पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
413.	49966	मैसर्स फ्रोनटेक पॉलीमर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	438.	51748	मैसर्स जी पी टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
414.	77989	मैसर्स फ्रान्टलाइन सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	439.	44279	मैसर्स गीत पुरुशोत्तम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
415.	83578	मैसर्स फर्न एन्टीक्यू (इण्डिया) लिमिटेड	440.	63292	मैसर्स गहना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
416.	60335	मैसर्स फुतुरा कैपिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड	441.	85414	मैसर्स जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
417.	17568	मैसर्स जी बीयानी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	442.	81299	मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
418.	85229	मैसर्स जी एल फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	443.	31606	मैसर्स जेनरल सेरामिक्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
419.	59916	मैसर्स जी मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	444.	20131	मैसर्स जेनरल लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
420.	53431	मैसर्स जी डी सी डी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	445.	66013	मैसर्स घोष इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
			446.	88832	मैसर्स जिमपेक्स कर्मशियल प्राईवेट लिमिटेड
			447.	69782	मैसर्स गिरिंगंगा विनकॉम प्राईवेट लिमिटेड
			448.	66640	मैसर्स जीकेडब्ल्यू प्रोपर्टीज लिमिटेड

1	2	3
449.	49790	मैसर्स ग्लासगो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
450.	87059	मैसर्स ग्लासफिब्र रेनफोर्सड पॉलिमर्स लिमिटेड
451.	27485	मैसर्स ग्लासवेजियन सर्वेयर्स एण्ड एस्सेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
452.	50038	मैसर्स गोदावरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
453.	77042	मैसर्स गोदावरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
454.	74242	मैसर्स गोयल आर्किटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
455.	74241	मैसर्स गोयल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
456.	30154	मैसर्स गोयल टयुब्स प्राईवेट लिमिटेड
457.	44324	मैसर्स गोकुल डेयरी एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
458.	26776	मैसर्स गोल्डन फिब्रे फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
459.	40554	मैसर्स गोल्डन पेन्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
460.	78460	मैसर्स गुड प्रोपले व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
461.	78684	मैसर्स गुडलक विनियम प्राईवेट लिमिटेड
462.	78459	मैसर्स गुडन्यूज व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
463.	52656	मैसर्स गुडविल रिटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
464.	78876	मैसर्स गुडविन मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
465.	60590	मैसर्स गार्जियस लाइफ जनरल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
466.	64626	मैसर्स गौरव फिस्कल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
467.	59433	मैसर्स गोवर्धन मर्केन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड
468.	70851	मैसर्स ग्रीन हॉर्न कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
469.	65445	मैसर्स ग्रीन मार्क वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड
470.	79943	मैसर्स ग्रीनेज रिसोर्ट एण्ड टुरिज्म लिमिटेड
471.	60768	मैसर्स गार्जियन परफार्मेंस पॉलिमर्स लिमिटेड
472.	42935	मैसर्स गुप्ता पॉलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
473.	33974	मैसर्स एच डी स्पाइस प्राईवेट लिमिटेड
474.	89958	मैसर्स एच एम सी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
475.	72489	मैसर्स हल्दिया इन्डस्ट्रीयल गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
476.	40850	मैसर्स हल्दिया मुद्रान प्राईवेट लिमिटेड
477.	58828	मैसर्स हल्दिया नाइट्रेट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
478.	42829	मैसर्स हल्दिया रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
479.	46684	मैसर्स हैल्लोट्रेड एण्ड फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड
480.	88116	मैसर्स हंस कार्गो केयर प्राईवेट लिमिटेड
481.	46023	मैसर्स हनुमान बारी कृषि कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
482.	38626	मैसर्स हनुमान (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
483.	92129	मैसर्स हैप्पी एम्युजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
484.	90401	मैसर्स हैप्पी होम किचन एड्स लिमिटेड
485.	53822	मैसर्स हरे कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
486.	89355	मैसर्स हरजास होस्पिटैलिटीज प्राईवेट लिमिटेड
487.	77182	मैसर्स हेमाद्री प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
488.	45986	मैसर्स हरबर्ट केमिकल्स लिमिटेड
489.	88738	मैसर्स हरबी कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
490.	44527	मैसर्स हरक्युलस पेपर बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
491.	47363	मैसर्स हेरिटेज फार्मासिउटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	31092	मैसर्स हरमेसेतास ऑफ इण्डिया लिमिटेड
493.	90260	मैसर्स हाई टेक ल्यूब्रीकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
494.	54915	मैसर्स हाई-टेक-निर्माण इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
495.	45387	मैसर्स हाईपॉलीमरीक इन्सुलेशन इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
496.	61839	मैसर्स हार्डवेयर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
497.	50990	मैसर्स हिमाद्री फिन्नेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
498.	39471	मैसर्स हिमाद्री वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	22191	मैसर्स हिन्द प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
500.	57671	मैसर्स हीरालाल ऑयल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
501.	43047	मैसर्स हीटेक डेवलपमेंट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
502.	28644	मैसर्स हितरिड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
503.	59698	मैसर्स एचकेएम कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
504.	59326	मैसर्स एचएमसी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
505.	91093	मैसर्स एचएमपी रैलीफोन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड
506.	65434	मैसर्स एचएमपी शाहाबाद सिमेन्ट्स लिमिटेड
507.	73281	मैसर्स एचएमपी स्नेहलता तमिलनाडु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
508.	71278	मैसर्स एचएमपी स्नेहलता उत्तर प्रदेश प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	536.	68704	मैसर्स इन्टरनेशनल फण्ड मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
509.	53548	मैसर्स हाटेल स्टेस प्राईवेट लिमिटेड	537.	36520	मैसर्स इन्टरविजन विडियो एजेन्स प्राईवेट लिमिटेड
510.	74617	मैसर्स हमतरी कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	538.	91106	मैसर्स इन्ट्रेपीड डिजिटल प्राईवेट लिमिटेड
511.	56982	मैसर्स हाइपर मिडिया सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	539.	82075	मैसर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एण्ड रिस्क एनालिसिस प्राईवेट लिमिटेड
512.	86260	मैसर्स आइ आर इस्टर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	540.	94470	मैसर्स इरिस टी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
513.	48575	मैसर्स आई पी ए मार्केटिंग लिमिटेड	541.	77945	मैसर्स इशान कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
514.	64423	मैसर्स आईडियल चेम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	542.	74596	मैसर्स इशिता एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड
515.	78152	मैसर्स आईडियल ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड	543.	76727	मैसर्स आइएसआर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
516.	76530	मैसर्स इमकॉन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	544.	43659	मैसर्स आइएसएस होल्डिंग्स लिमिटेड
517.	25367	इण्डियन बिल्डिंग एलिमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	545.	49045	मैसर्स जैक्स इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
518.	30612	मैसर्स इण्डियन पॉलीमाइन्स एण्ड इन्डस्ट्री लिमिटेड	546.	82655	मैसर्स जगदम्बा मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
519.	14535	मैसर्स इण्डियन टिकवूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	547.	65762	मैसर्स जगधात्री एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड
520.	81204	मैसर्स इन्डोबेल कम्पोजिटीज प्राईवेट लिमिटेड	548.	34913	मैसर्स जैन जूट कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
521.	75491	मैसर्स इन्द्रानी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	549.	79365	मैसर्स जैन मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
522.	71792	मैसर्स इन्द्रनील होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	550.	30631	मैसर्स जैनसन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
523.	69647	मैसर्स इन्दु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	551.	32474	मैसर्स जजोदिया टिम-को प्राईवेट लिमिटेड
524.	45701	मैसर्स इन्दु सिलिका प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	552.	11213	मैसर्स जेम्स एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
525.	14634	मैसर्स इन्डस प्रेस एण्ड पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड	553.	58021	मैसर्स जनहित सेविंग्स एण्ड क्रेडिट (इण्डिया) लिमिटेड
526.	48297	मैसर्स इन्फोरमेटिका सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	554.	21463	मैसर्स जनादन राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
527.	90586	मैसर्स इन्फोरमेशन कीस्ट्रोक्स ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड	555.	94985	मैसर्स जानी नोवेल्टीज प्राईवेट लिमिटेड
528.	59852	मैसर्स आइएनआइ मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	556.	45671	मैसर्स जैप कंस्ट्रक्शन एण्ड फेब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
529.	89375	मैसर्स इन्नोप्लान (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	557.	46685	मैसर्स जय विजय ट्रेड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
530.	77365	मैसर्स इन्सेट मर्चेन्डाइज प्राईवेट लिमिटेड	558.	63716	मैसर्स जयंर ऑयल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
531.	87196	मैसर्स इन्सटीच्यूट ऑफ होटेल मैनेजमेंट एण्ड टुरिज्म प्राईवेट लिमिटेड	559.	64075	मैसर्स जयपी कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
532.	28738	मैसर्स इन्स्ट्रुमेंट सिस्टम्स ईस्टर्न प्राईवेट लिमिटेड	560.	45236	मैसर्स जेसीटीआर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
533.	39280	मैसर्स इन्सु इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	561.	73663	मैसर्स जीवनसुधा ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
534.	29386	मैसर्स इन्सोरेण कंसल्टेन्ट्स एण्ड रि-इन्सोरेण ब्रोकर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	562.	24857	मैसर्स जेलोका इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
535.	27180	मैसर्स इन्टरनेशनल कैफेटेरिया प्राईवेट लिमिटेड	563.	30938	मैसर्स जेम्स इलेक्ट्रोमेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
564.	92672	मैसर्स जेन्सन एण्ड निकोलसन इन्डस्ट्रीयल कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	593.	74126	मैसर्स क्रेनेक्स डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
565.	92683	मैसर्स जेन्सन एण्ड निकोलसन पावडर कोटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	594.	59071	मैसर्स कर्नेल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
566.	75609	मैसर्स जेपी मार्बल एण्ड मिनेरल्स प्राईवेट लिमिटेड	595.	68151	मैसर्स केशन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
567.	72407	मैसर्स जेवेल पैक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	596.	65493	मैसर्स खेतान फिस्कल एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
568.	53481	मैसर्स जोरिन कार्बन प्राईवेट लिमिटेड	597.	66979	मैसर्स खण्डेलवाल फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
569.	27824	मैसर्स जोशी हायर पचेज एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	598.	21786	मैसर्स खास गोविन्दपुर कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
570.	19972	मैसर्स जूट फिब्रे कम्पनी लिमिटेड	599.	43957	मैसर्स खतुन्दी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
571.	38041	मैसर्स ज्योति वस्त्रालय प्राईवेट लिमिटेड	600.	67192	मैसर्स केआइसी पॉलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
572.	46849	मैसर्स के एण्ड आर मर्केन्टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	601.	29726	मैसर्स किमती बेनेफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
573.	65385	के पी बी बुक्स प्राईवेट लिमिटेड	602.	38072	मैसर्स काइनेटिक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
574.	29398	मैसर्स काशुमा इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	603.	90040	मैसर्स किंजल एक्सपोर्ट एण्ड मैनेफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
575.	49395	मैसर्स काका रोडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	604.	27495	मैसर्स किरण ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
576.	53825	मैसर्स कालिका कोल एण्ड एलॉयड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	605.	50963	मैसर्स किर्ती होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
577.	72401	मैसर्स कामक्षी एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड	606.	78300	मैसर्स किशन लक्ष्मी एग्रो एण्ड मैनुर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
578.	37897	मैसर्स कानोइ कमर्शियल्स प्राईवेट लिमिटेड	607.	44028	मैसर्स किशोरी लाल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
579.	30615	मैसर्स कनोरिया पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	608.	47661	मैसर्स किट केट फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
580.	90651	मैसर्स कपिश मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	609.	72741	मैसर्स किट्टी मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
581.	52932	मैसर्स कपुर विनियर एण्ड वूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	610.	43248	मैसर्स केएलडीज ट्वायज प्राईवेट लिमिटेड
582.	87259	मैसर्स करीमबक्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	611.	31204	मैसर्स केएलआइएम कमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
583.	79182	मैसर्स कर्नावती डीलकॉम प्राईवेट लिमिटेड	612.	57105	मैसर्स केएमपी ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
584.	74125	मैसर्स कसा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	613.	85143	मैसर्स केएमआर इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
585.	60305	मैसर्स कस्तुरी स्टॉक इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	614.	30766	मैसर्स कोचर ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
586.	62277	मैसर्स कावेरी सुगर प्राईवेट लिमिटेड	615.	4085	मैसर्स कोहिनुर फलावर मिल्लींग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
587.	85809	मैसर्स कहीम फार्मासिउटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	616.	27322	मैसर्स कोजानी जूट बालिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
588.	77409	मैसर्स केबीएस फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	617.	66515	मैसर्स कोन्कन ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड
589.	40108	मैसर्स केदारनाथ मन्नालाल प्राईवेट लिमिटेड	618.	67190	मैसर्स कंपीके इन्टरनेशनल लिमिटेड
590.	29270	मैसर्स केडिया फोर्जिंग एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	619.	31840	मैसर्स क्रान्सविप इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
591.	46016	मैसर्स केडिया साड़ी प्राईवेट लिमिटेड	620.	86033	मैसर्स क्राटिव टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
592.	75358	मैसर्स केनिलवर्थ एबीसी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	621.	93853	मैसर्स केआरडी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
622.	41944	मैसर्स केआरएन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	653.	22613	मैसर्स एम पी बिल्डर्स लिमिटेड
623.	89233	मैसर्स केएसडी मर्केन्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	654.	56776	मैसर्स एम भट्टाचारिया लेबोरेटोरिज प्राईवेट लिमिटेड
624.	91730	मैसर्स केएसपीएन मैरिटाइम एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड	655.	60164	मैसर्स एम डी एस सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
625.	59988	मैसर्स कुबेर व्यापार प्राईवेट लिमिटेड	656.	90566	मैसर्स एम आर पॉलिपेक प्राईवेट लिमिटेड
626.	76269	मैसर्स एल मदनलाल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	657.	93917	मैसर्स एम एस सी इन्सुरेंस एजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
627.	71197	मैसर्स ला नॉयर फ्युल्स लिमिटेड	658.	47173	मैसर्स माँ तारा बोर्ड एण्ड पेपर मिल प्राईवेट लिमिटेड
628.	83690	मैसर्स लबपुर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	659.	91349	मैसर्स मा इनफोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
629.	80616	मैसर्स लाहोती फिन्ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	660.	88365	मैसर्स मा मंगल चंडी एल्मुनियम प्राईवेट लिमिटेड
630.	86739	मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	661.	76099	मैसर्स मा सरस्वती रिसॉर्सेज प्राईवेट लिमिटेड
631.	47071	मैसर्स लालजी राम छाजूमल प्राईवेट लिमिटेड	662.	86930	मैसर्स माधवलाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
632.	60223	मैसर्स लैन्सी हाऊसिंग फाईनेन्सियल प्राईवेट लिमिटेड	663.	72587	मैसर्स मधुरीमा गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
633.	58448	मैसर्स लैसडाउन डेपलपरस प्राईवेट लिमिटेड	664.	80917	मैसर्स माद्री ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
634.	57279	मैसर्स लापोग इनवेस्टमेंट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	665.	68050	मैसर्स माई एडवीजरी प्राईवेट लिमिटेड
635.	72327	मैसर्स लासनी कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	666.	38974	मैसर्स मगनो पल्स प्राईवेट लिमिटेड
636.	63983	मैसर्स लूरेल मार्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	667.	57139	मैसर्स मगनम कनक्लेव फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
637.	67493	मैसर्स लाविश टेक्स्टाइल प्राईवेट लिमिटेड	668.	69341	मैसर्स महाधन ट्रेकन प्राईवेट लिमिटेड
638.	83139	मैसर्स लाब्योय इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	669.	61237	मैसर्स महारगी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
639.	82218	मैसर्स एलसीबी कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	670.	82193	मैसर्स महारानी प्रापर्टिज प्राईवेट लिमिटेड
640.	57443	मैसर्स लिओ कार्ड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड	671.	39996	मैसर्स महासंगम फाईनेन्स एण्ड इन्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
641.	79778	मैसर्स लेक्सीस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	672.	76168	मैसर्स महावीर स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड
642.	89685	मैसर्स लाइफ गार्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	673.	60185	मैसर्स मजुमदार एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
643.	52069	मैसर्स लिमटेक्स एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड	674.	78572	मैसर्स मालाबर पेरल प्राईवेट लिमिटेड
644.	43597	मैसर्स लिटिल हट्स एण्ड होम्स प्राईवेट लिमिटेड	675.	44590	मैसर्स मल्होत्रा बर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
645.	80946	मैसर्स लोकनाथ कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	676.	52747	मैसर्स मालासिसरी फिजिकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
646.	80863	मैसर्स लॉगलाइफ डिलकम प्राईवेट लिमिटेड	677.	46689	मैसर्स मलया ट्रेड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
647.	88649	मैसर्स लोर्ड्स एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	678.	75084	मैसर्स माम इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
648.	78696	मैसर्स लवकुश एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड	679.	77310	मैसर्स माम रिप्रोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
649.	63694	मैसर्स लक्नो जर्दा फेक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	680.	89510	मैसर्स माम्स कसमेटीस प्राईवेट लिमिटेड
650.	63909	मैसर्स लुमक्स मर्चेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	681.	75225	मैसर्स मनिषा कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
651.	74875	मैसर्स लुन्डिया स्टील एण्ड फब प्राईवेट लिमिटेड	682.	48200	मैसर्स मन्त्री एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
652.	47307	मैसर्स एम एच टी फुड्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
683.	47078	मैसर्स मारिया कंजूमरस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	714.	74463	मैसर्स मोबर मिनींग लिमिटेड
684.	41373	मैसर्स मरलीन लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	715.	22190	मैसर्स मोबाइल फिनांस एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
685.	81737	मैसर्स मारमेक प्राईवेट लिमिटेड	716.	17206	मैसर्स मोबिलिटी एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
686.	74055	मैसर्स मरूभूमी गुड्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	717.	78209	मैसर्स मोर्डन डेल्टा एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
687.	48973	मैसर्स मारभेलन इन्डस्ट्रीयल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	718.	43321	मैसर्स मोर्डन पब्लिसर एण्ड ट्रेडर्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
688.	45228	मैसर्स मस्कट टेनरी प्राईवेट लिमिटेड	719.	50420	मैसर्स मोर्डन स्पॉन्सरेट एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
689.	46279	मैसर्स मास्टर क्रियेटीव कंसल्टेंस लिमिटेड	720.	34229	मैसर्स मोदी एण्ड लखौटिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
690.	72996	मैसर्स मौरीन फैसन प्राईवेट लिमिटेड	721.	54321	मैसर्स मोहित कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
691.	87741	मैसर्स मेक्सीट्रान्ज प्राईवेट लिमिटेड	722.	51718	मैसर्स मोनेक्स कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड
692.	56756	मैसर्स एम बी एस टेकमाटीक्स प्राईवेट लिमिटेड	723.	45051	मैसर्स मोनेक्स फिनांस प्राईवेट लिमिटेड
693.	46261	मैसर्स मीरा विलेज रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	724.	28906	मैसर्स मोनीप्रेज प्राईवेट लिमिटेड
694.	81039	मैसर्स मेगा ग्रीनफिल्डस प्राईवेट लिमिटेड	725.	80488	मैसर्स मनोज स्क्रीन प्रीटिंग एण्ड नीटिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
695.	82985	मैसर्स मेगा स्क्रीन एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	726.	78095	मैसर्स मृदुल कॉमर्सियल प्राईवेट लिमिटेड
696.	56284	मैसर्स मेगाठेरम प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	727.	79025	मैसर्स मृगनैनी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
697.	25976	मैसर्स मेरकन्टिल ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	728.	67495	मैसर्स मुदिता कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड
698.	78957	मैसर्स मेट्रो गुड्स प्राईवेट लिमिटेड	729.	44249	मैसर्स मल्टी स्टेड्स प्राईवेट लिमिटेड
699.	42973	मैसर्स मेट्रो पॉलिटेन बिल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	730.	87159	मैसर्स मल्टी टेक सोकियो इकोनॉमिक सर्वे कन्सल्टेंस एण्ड इन्टरप्राइजेज
700.	24164	मैसर्स माइक्पो मैनुफैक्चर प्राईवेट लिमिटेड	731.	93229	मैसर्स मल्टीकॉन हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
701.	84453	मैसर्स माइक्रो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	732.	45058	मैसर्स मल्टीपरपस डेवलपर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
702.	73446	मैसर्स मिडको कन्सल्टेन्ट्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	733.	72340	मैसर्स मल्टीविजन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
703.	88279	मैसर्स मिल्लत ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	734.	67876	मैसर्स मुनीराज मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
704.	69844	मैसर्स मिल्लिया विनकोम प्राईवेट लिमिटेड	735.	76061	मैसर्स मुन्ना बाबु फुड्स प्राईवेट लिमिटेड
705.	89741	मैसर्स माण्डवर्क सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड	736.	34282	मैसर्स मुरारका इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
706.	50680	मैसर्स मिक इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड	737.	62950	मैसर्स मुरेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
707.	66824	मैसर्स मिक लेट्रस फैसन्स प्राईवेट लिमिटेड	738.	83521	मैसर्स मिरीन्डा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
708.	87188	मैसर्स मिनु मिनरल प्राईवेट लिमिटेड	739.	50035	मैसर्स एन के फिजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
709.	78464	मैसर्स मिरीन्डा मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	740.	80636	मैसर्स एन आर बी इन्टिरियर एण्ड डिजाइनर प्राईवेट लिमिटेड
710.	24680	मैसर्स मित्रा मैनुफैक्चरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड			
711.	86457	मैसर्स एमएम जी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड			
712.	92736	मैसर्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड			
713.	51311	मैसर्स एम एम आई इम्पेक्स एम एम जी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
741.	23649	मैसर्स एन आर मुखर्जी प्राईवेट लिमिटेड
742.	53726	मैसर्स एन जी इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
743.	8570.	मैसर्स एन एम रावचौधरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
744.	71139	मैसर्स एन एस यूलेन गार्मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
745.	31904.	मैसर्स नाहा इन्जिनियरिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
746.	79705	मैसर्स नमन एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
747.	90177	मैसर्स नमन सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
748.	63053	मैसर्स मानदिनी टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड
749.	91528	मैसर्स नरायणी नीटवेल प्राईवेट लिमिटेड
750.	57800	मैसर्स नरायणी गारान्टिज प्राईवेट लिमिटेड
751.	79721	मैसर्स नरूला डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
752.	11031	मैसर्स नारुन्दि ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
753.	63436	मैसर्स नरविक इक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
754.	94203	मैसर्स नस्कर कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
755.	43829	मैसर्स नाथवेल्ड एण्ड मेटल इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
756.	9925	मैसर्स नेशनल मॉडल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
757.	22403	मैसर्स नेशनल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
758.	47274	मैसर्स नेचर क्योर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
759.	28375	मैसर्स नव भारत प्लास्टिक मोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
760.	66552	मैसर्स नव कंतन इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
761.	27700	मैसर्स नवदीपम रेडियो प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज
762.	63321	मैसर्स नवदुर्गा सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
763.	35879	मैसर्स नवीन कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
764.	45678	मैसर्स नवीण इण्डस्ट्रीयल स्पेयर प्राईवेट लिमिटेड
765.	79204	मैसर्स नोरोल्क कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
766.	93635	मैसर्स न्यू एज इन्शुरेंस एजेंट्स प्रा. लिमिटेड
767.	93536	मैसर्स न्यू फोरिन्टर फायर फाइटर प्राईवेट लिमिटेड
768.	70834	मैसर्स न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
769.	51652	मैसर्स न्यू इण्डिया फिनान्स लिमिटेड
770.	85698	मैसर्स न्यूफाइल्ड मॉडल डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
771.	77827	मैसर्स नवजेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
772.	91860	मैसर्स न्यूलाइफ फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड
773.	39379	मैसर्स न्यूटेक रॉल्स एमफीज एण्ड प्रापर्टीज
774.	28525	मैसर्स निगम ब्रदर्स (सेल्स) प्राईवेट लिमिटेड
775.	90173	मैसर्स निखार कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
776.	63266	मैसर्स निखिल अर्कान प्राईवेट लिमिटेड
777.	35055	मैसर्स निकुंज कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
778.	81055	मैसर्स निलोग कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
779.	85859	मैसर्स निप्पन टेकना सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
780.	72952	मैसर्स निरी किशन गुडस प्राईवेट लिमिटेड
781.	62414	मैसर्स निशिचिन्त कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
782.	86010	मैसर्स नॉरफ्रोस्ट एसी सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
783.	79478	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रोड लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
784.	86295	मैसर्स नॉर्थ पोइन्ट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
785.	65857	मैसर्स नॉर्थ वेस्ट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
786.	37162	मैसर्स नॉर्दन इण्डिया ब्लैड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
787.	74935	मैसर्स एन आर आई रेट्रेस प्राईवेट लिमिटेड
788.	53552	मैसर्स एन वी सर्वो टेक प्राईवेट लिमिटेड
789.	86087	मैसर्स ऑब्जेक्टिविटी सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
790.	51908	मैसर्स ओ बी एस ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
791.	56243	मैसर्स ओडसि हाऊसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
792.	28022	मैसर्स ओक्टी टी स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
793.	57559	मैसर्स ऑलपम्स बुक्स प्राईवेट लिमिटेड
794.	63658	मैसर्स ऑम आनन्दम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
795.	52184	मैसर्स ऑमकृशना डेवलपर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
796.	37332	मैसर्स औरेंज वेल्ली टी लिमिटेड
797.	80674	मैसर्स अरबित एम्पलियेस प्राईवेट लिमिटेड
798.	70965	मैसर्स अरबित कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
799.	59727	मैसर्स अरियन इन्टर ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
800.	64005	मैसर्स अरमग ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड
801.	75332	मैसर्स ऑस्ट्रे ट्रेडिंग ट
802.	63887	मैसर्स ऑटक्लिन विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
803.	75139	मैसर्स ऑटो पैकेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
804.	57078	मैसर्स ऑवर-टेक सेविंग हाऊसिंग एण्ड फिनेन्स कम्पनी लि.	833.	22659	मैसर्स पेलिकॉन इंजीनियरिंग
805.	34109	मैसर्स ऑन (इण्डिया) फिनैन्स लिमिटेड	834.	66546	मैसर्स पर्सी ओयरॉन प्राइवेट लिमिटेड
806.	88007	मैसर्स एफ डी एफ पोलमर प्राइवेट लिमिटेड	835.	76422	मैसर्स परफेक्ट वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
807.	33941	मैसर्स पी एच एसोसियेट प्राइवेट लिमिटेड	836.	60208	मैसर्स पेटुनिया होलडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
808.	46971	मैसर्स पी के वल्वस प्राइवेट लिमिटेड	837.	86675	मैसर्स पिनेकल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
809.	94519	मैसर्स पी के दास एसोसियेट्स एण्ड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	838.	75236	मैसर्स पिताम्बरी ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
810.	31643	मैसर्स पी के टी प्राइवेट लिमिटेड	839.	18216	मैसर्स प्लास्टो आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
811.	62399	मैसर्स पी ओ डी एग्री फोरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	840.	36333	मैसर्स प्लाजा इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
812.	48405	मैसर्स पी एस रबर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	841.	80978	मैसर्स प्लुटस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
813.	75238	मैसर्स पिसिफीक ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड	842.	68015	मैसर्स प्लुटस टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
814.	71740	मैसर्स पदमावती कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	843.	42997	मैसर्स पीएमपी सील्स प्राइवेट लिमिटेड
815.	93125	मैसर्स पीजस ब्रान्ड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	844.	11582	मैसर्स पोद्दार माइनिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
816.	39952	मैसर्स पहाड़ीमाता प्रोप्राइटर्स प्राइवेट लिमिटेड	845.	57067	मैसर्स पोलिकिड रेसिन प्राइवेट लिमिटेड
817.	58912	मैसर्स पैलेस इक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	846.	28023	मैसर्स पूलबॉग टी गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
818.	59930	मैसर्स पल्लिबन्धु सेविंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	847.	90701	मैसर्स प्रभात रजनी इंस्टिट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड
819.	84679	मैसर्स परदेशी वेजेटेशन फार्म प्राइवेट लिमिटेड	848.	57659	मैसर्स प्रभु निवास होसिंग एण्ड लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
820.	76376	मैसर्स पारामाऊण्ट कन्फेन्सन्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड	849.	48400	मैसर्स प्रगति गियर्स लि.
821.	73799	मैसर्स पारामाऊण्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड	850.	37377	मैसर्स प्रगति प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
822.	74056	मैसर्स पारस विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	851.	81943	मैसर्स प्रकाश सेल्स एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
823.	69861	मैसर्स परिक्रमा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	852.	61032	मैसर्स प्रक्रीतप्लान्ट मीडिया लि.
824.	51422	मैसर्स पारमाऊण्ट वर्ल्डवाइड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड	853.	18599	मैसर्स प्रसाद एण्ड स्टीफेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
825.	63231	मैसर्स पारॉट नेस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड	854.	39114	मैसर्स प्रसाद कमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड
826.	81522	मैसर्स पास्कॉ फिनेन्स एण्ड लेसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	855.	50066	मैसर्स प्रसेनासेन्टर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
827.	51810	मैसर्स पटोकोला राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	856.	26917	मैसर्स प्रतापमहल गोविन्दराम परमास्युटिक्ल प्राइवेट लिमिटेड
828.	86875	मैसर्स पाट्रीट सिक्युरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	857.	73108	मैसर्स प्रीमियर एडकॉन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
829.	32495	मैसर्स पी भाग केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	858.	36320	मैसर्स प्रिंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
830.	75211	मैसर्स पर्ल ट्रेडकॉमअ	859.	63642	मैसर्स प्राइमोसोनिक टेलिविजन प्राइवेट लिमिटेड
831.	89764	मैसर्स पेकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	860.	82984	मैसर्स प्राइमपेट्रोप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
832.	52631	मैसर्स पिआन इंडस्ट्रियल फेब्रिक प्राइवेट लिमिटेड	861.	60209	मैसर्स प्राइम रोस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
			862.	60005	मैसर्स प्रिंक फिनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
			863.	80799	मैसर्स प्रिन्ट ओ एडवायड्समेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
864.	40058	मैसर्स प्रिन्टेड सर्क्यूट्स इन्टरनेशनल लि.
865.	24324	मैसर्स प्रिंटेड एण्ड स्टेशनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
866.	42755	मैसर्स प्रिन्टोपलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
867.	88904	मैसर्स प्रोकोमॉन प्राईवेट लिमिटेड
868.	87950	मैसर्स प्रोलॉग कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
869.	88474	मैसर्स प्रोमेगा एयरकॉन इम्प्लक्स प्राईवेट लिमिटेड
870.	88134	मैसर्स प्रोसॉफ्ट इंजिनियर्स एण्ड एसोसिएट्स
871.	90802	मैसर्स प्रोसिस इ कॉम प्राईवेट लिमिटेड
872.	68192	मैसर्स प्रोटेक्स सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
873.	42495	मैसर्स प्रोटोस्टार इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
874.	50854	मैसर्स प्रुडेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
875.	86896	मैसर्स पी एस ए मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
876.	49052	मैसर्स पूजा टर्नकोस प्राईवेट लिमिटेड
877.	16069	मैसर्स प्योर ड्रग एण्ड केमिकल्स लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड
878.	86733	मैसर्स प्योर होम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
879.	78466	मैसर्स पुष्पक कमोडिटिस प्राईवेट लिमिटेड
880.	72360	मैसर्स क्वालिटी फ्राइट्स लि.
881.	63480	मैसर्स क्यूलेमेन विनिमेय प्राईवेट लिमिटेड
882.	23048	मैसर्स आर. सेन एण्ड को टिम्बर ट्रीटमेंट प्राईवेट लिमिटेड
883.	32608	मैसर्स आर.बी.एच. फिनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
884.	35945	मैसर्स आर.के. एम्ब्राइडरी प्राईवेट लिमिटेड
885.	58347	मैसर्स आर.के. लेन्ड एन्ड हाउस प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
886.	27590	मैसर्स आर.एल. सरॉफ एण्ड को जूट एण्ड गनी प्राईवेट लिमिटेड
887.	57050	मैसर्स आर.आर. कन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
888.	59919	मैसर्स आर.आर. मेरकॉनटाइल प्राईवेट लिमिटेड
889.	37259	मैसर्स रास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
890.	51621	मैसर्स रेसवे कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
891.	30609	मैसर्स रचना सिंटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
892.	40140	मैसर्स राधा कृष्णा राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
893.	84602	मैसर्स राधे फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
894.	76873	मैसर्स रेडियन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
895.	69722	मैसर्स रेडिक्स सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
896.	55384	मैसर्स राघव ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
897.	42943	मैसर्स राहुल पोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
898.	44377	मैसर्स राय सिंघ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
899.	20030	मैसर्स रेलवे लेबर लिमिटेड
900.	43550	मैसर्स रॉय सन्स एग्रो इन्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
901.	88318	मैसर्स राज रिप्रेसमेंट प्राईवेट लिमिटेड
902.	41163	मैसर्स राजा कोल्डस्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
903.	44743	मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
904.	19474	मैसर्स राजगडिया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
905.	65035	मैसर्स राजलक्ष्मी फुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
906.	75227	मैसर्स राजपूत इंजीनियरिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
907.	82806	मैसर्स राकेश प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
908.	91098	मैसर्स रैल्लीवूल्फ एचएमपी मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड
909.	89269	मैसर्स रंजिता क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
910.	43155	मैसर्स रत्नदीप स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
911.	16089	मैसर्स रेज प्राईवेट लिमिटेड
912.	89323	मैसर्स आरसीजी टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
913.	60190	मैसर्स आर डी जी कम्प्यूटी प्राईवेट लिमिटेड
914.	66554	मैसर्स रेबेना कॉस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
915.	79312	मैसर्स रेकॉन डिलर्स प्राईवेट लिमिटेड
916.	91696	मैसर्स रेडस्टार इन्ट्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
917.	46102	मैसर्स रेडशन्स शिवा सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड
918.	42510	मैसर्स रेलेवन्स कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
919.	83032	मैसर्स रिलैवल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
920.	24312	मैसर्स रिलैवल मेटल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
921.	74688	मैसर्स रिलैवल रेडियंट्स (कलकत्ता) प्राईवेट लिमिटेड
922.	63097	मैसर्स रेलायन्ट लिजिंग एण्ड सिक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
923.	43107	मैसर्स रिसॉस विजेन्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
924.	88266	मैसर्स रेक्स एपार्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
925.	88182	मैसर्स रेक्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
926.	80386	मैसर्स सिद्दीयम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
927.	68980	मैसर्स रिगर टाइप प्राईवेट लिमिटेड
928.	29583	मैसर्स राइज सेविंग एण्ड चीटफण्ड प्राईवेट लिमिटेड
929.	59648	मैसर्स रीता पेपरकेम प्राईवेट लिमिटेड
930.	91912	मैसर्स रिबर एण्ड स्टूवरी मॅजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
931.	52741	मैसर्स आरकेएके मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
932.	59918	मैसर्स आर के ओ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
933.	91579	मैसर्स आर एम एस सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
934.	30635	मैसर्स रॉबट्स मेकलिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
935.	32561	मैसर्स रॉबट मेकलिंग कॉन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
936.	48230	मैसर्स रॉबिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
937.	50812	मैसर्स रॉकेट हाऊसिंग फिनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
938.	49053	मैसर्स रोहन इंजीनियर प्राईवेट लिमिटेड
939.	32563	मैसर्स रॉक ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
940.	80177	मैसर्स राहित कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
941.	60451	मैसर्स रॉलैन्ड पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
942.	78465	मैसर्स रॉलैन्ड सेल्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
943.	50796	मैसर्स रॉटोमैक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
944.	81931	मैसर्स राव टेक कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड
945.	59040	मैसर्स राव ट्रेडिंग्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
946.	80901	मैसर्स रॉयल फाज्काज एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
947.	66616	मैसर्स रॉयल टेक्नॉलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
948.	87172	मैसर्स रॉयल ऑप्रिनिज प्राईवेट लिमिटेड
949.	70176	मैसर्स राजेलोमाचेन्ड्रा प्राईवेट लिमिटेड
950.	54842	मैसर्स रक शिपर एण्ड स्ट्रक क्रॉकिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
951.	90117	मैसर्स रेस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
952.	67417	मैसर्स रूबी टूर एण्ड कोरियर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
953.	70310	मैसर्स रूडिया इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
954.	52252	मैसर्स रूडिया हाऊसिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
955.	87566	मैसर्स रूमानी होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
956.	63290	मैसर्स रून्सर कोरियर एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
957.	67429	मैसर्स रूपतारा अभरा प्राईवेट लिमिटेड
958.	66543	मैसर्स रूपतारा फुड प्राईवेट लिमिटेड
959.	76026	मैसर्स रूमल रत्नलाल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
960.	80604	मैसर्स रस्तल स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
961.	37604	मैसर्स एस एण्ड सी स्पेसलेटिज प्राईवेट लिमिटेड
962.	8913	मैसर्स एस एस देवी जाम्बद कॉल कर्न्सन प्राईवेट लिमिटेड
963.	83638	मैसर्स एस एस के इण्डिका सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
964.	40175	मैसर्स एस एस मेरीन प्राईवेट लिमिटेड
965.	57125	मैसर्स एस डी निर्मान हाऊसिंग डेवलपमेंट एण्ड फिनेन्स कम्पनी लिमिटेड

टी. पी. शर्मा

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स स्टार्ट आयकन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 जून 2005

सं. 24-03066/जी/420—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टार्ट आयकन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. के. पुरवार

कम्पनी रजिस्ट्रार

गोवा दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अैकजोटिक बाइक टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 जून 2005

सं. 24-03163/जी/423—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अैकजोटिक बाइक टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. के. पुरवार

कम्पनी रजिस्ट्रार

गोवा दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नोवा शेअर्स एण्ड सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 जून 2005

सं. 24-01727/जी/560(3)/426--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोवा शेअर्स एण्ड सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 24 जून 2005

सं. आरएपी/एफटीएस/560(3)/2001--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) तथा भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 20-09-2000 के पत्र सं. 1/5/2000 सीएल. व्ही के परिपत्र सं. 10/2000 द्वारा पठित के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम संख्या	कंपनी संख्या	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि
1	2	3	4
01.	25093	मैसर्स पाटेल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	03.09.1996
02.	24076	मैसर्स ए आर एम हरिस कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	14.05.1996
03.	24272	मैसर्स विनर फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05.06.1996
04.	26514	मैसर्स सुक्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	25.12.1997
05.	26035	मैसर्स आरसिन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	26.12.1996
06.	22999	मैसर्स श्री वर्शिनी चिटस प्राइवेट लिमिटेड	25.01.1996
07.	24471	मैसर्स सत्यम एसबेस्टॉस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	28.06.1996
08.	25630	मैसर्स ग्रानादा सॉफ्टवेयर कन्सलटेन्सी लिमिटेड	28.06.1996
09.	25987	मैसर्स एराशा, इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	05.05.1996

1	2	3	4
10.	25701	मैसर्स सम्प्रदाया चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	13.11.1996
11.	22548	मैसर्स स्वास्तिक साइ इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	11.12.1995
12.	23198	मैसर्स रोबट बेनिफिट फण्ड लिमिटेड	13.02.1996
13.	23916	मैसर्स विनिमया हायर पर्वेस फाइनेन्स लिमिटेड	30.04.1996
14.	24151	मैसर्स सामा इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड	22.05.1996
15.	24307	मैसर्स श्री श्याम जिविल्लर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	10.06.1996
16.	24492	मैसर्स डेफ्रा फ्लोवर्स लिमिटेड	01.07.1996
17.	24279	मैसर्स ग्लोबल रियल एस्टेट्स लिमिटेड	06.06.1996
18.	25316	मैसर्स जी.वी.एस. कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	27.09.1996
19.	26910	मैसर्स ब्रिलियन्ट एग्रो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	17.04.1997
20.	25485	मैसर्स रिचा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	14.10.1996
21.	26823	मैसर्स इन्डस इन्टरनेशनल मार्केट लिमिटेड	04.04.1997
22.	26991	मैसर्स विशाल फिनकोर्प सर्विसेज लिमिटेड	29.04.1997
23.	23994	मैसर्स के.वी.आर. इन्वीरोनमेंटल मोनिटोरिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	06.05.1996
24.	25635	मैसर्स कोटन ब्रोन एण्ड मेकनजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	05.11.1996
25.	20835	मैसर्स श्री लॉड्स प्राइवेट लिमिटेड	26.06.1995
26.	20947	मैसर्स स्कोट फूड्स एण्ड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	05.07.1995
27.	21738	मैसर्स हईक्लास फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	18.09.1995
28.	21987	मैसर्स श्री एमजी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	12.10.1995
29.	16882	मैसर्स हैसन इण्डिया लिमिटेड	12.01.1994
30.	16041	मैसर्स आर्म फैनान्स लिमिटेड	21.07.1993
31.	20585	मैसर्स जूनित्री इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	05.06.1995

1	2	3	4
32.	21798	मैसर्स अवंती आर्गोनिक्स लिमिटेड	25.09.1995
33.	21085	मैसर्स वी सी आर स्टील री-रोलिंग मिल्स लिमिटेड	19.07.1995
34.	21259	मैसर्स वेव आर्गोनिक्स लिमिटेड	08.05.1995
35.	20478	मैसर्स साई महाराज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	26.05.1995
36.	16045	मैसर्स प्रमोद इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	21.07.1993
37.	18126	मैसर्स सागर मिल्क फूड्स लिमिटेड	12.08.1994
38.	21297	मैसर्स युनी-मैज प्रोसेसिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	02.08.1995
39.	22249	मैसर्स सुमु ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	15.11.1995
40.	20981	मैसर्स श्री वेनुगोपाल हायर पर्चेस एण्ड फैनान्सीयर प्राईवेट लिमिटेड	07.07.1995
41.	21728	मैसर्स आदित्या फलीस लिमिटेड	15.09.1995
42.	21642	मैसर्स इण्डस हरिता फार्मस लिमिटेड	06.09.1995
43.	20937	मैसर्स पार्वती ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	05.07.1995
44.	21856	मैसर्स स्वामी फैनान्सीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	27.09.1995
45.	20595	मैसर्स मेगसिटी कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	05.06.1995
46.	20648	मैसर्स इयुरो फैन मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड	08.06.1995
47.	20589	मैसर्स साईसुधा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	05.06.1995
48.	20375	मैसर्स आलरिच फ्लोरेक्स लिमिटेड	17.05.1995
49.	20639	मैसर्स ज़िनित एग्रीटेक लिमिटेड	08.06.1995
50.	20607	मैसर्स गुडापाटि कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	07.06.1995
51.	20334	मैसर्स सत्याश्री लीजिंग एण्ड फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड	15.05.1995
52.	18238	मैसर्स साकेता सेक्युरिटीस लिमिटेड	05.09.1994
53.	19101	मैसर्स कोरा रोसेस लिमिटेड	30.12.1994
54.	15447	मैसर्स पी.आर. एग्रो टेक लिमिटेड	25.02.1993
55.	15908	मैसर्स पी.वी.आर. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	24.06.1993
56.	18723	मैसर्स डी.एच.आर. फैनान्स लिमिटेड	10.11.1994

1	2	3	4
57.	18916	मैसर्स श्री भव्या साई कमर्शियल फैनान्स लिमिटेड	09.12.1994
58.	18754	मैसर्स निचिट ट्रान्सपोर्ट केरीयर्स प्राईवेट लिमिटेड	15.11.1994
59.	22977	मैसर्स सोग्रा एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	23.01.1996
60.	18008	मैसर्स यामिनी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	27.07.1994
61.	18762	मैसर्स पंचवति फैनान्सीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	15.11.1994
62.	15093	मैसर्स ईएसएस ई एल वी एलक्ट्रिकल्स इन्सलेशनस प्राईवेट लिमिटेड	02.12.1992
63.	22798	मैसर्स रेडियन्ट शीप प्राईवेट लिमिटेड	05.01.1996
64.	23486	मैसर्स इन्टेन्सीस कैपिटल्स लिमिटेड	11.03.1996
65.	24122	मैसर्स इन्डो अमेरिका फैनान्स लिमिटेड	17.05.1996
66.	26049	मैसर्स अस्वीन एग्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	27.12.1996
67.	25829	मैसर्स भविष्या फैनान्सीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	28.11.1996
68.	26014	मैसर्स डी.वी.एस. राव लीजिंग एण्ड हैर पर्चेस फैनान्स प्राईवेट लिमिटेड	23.12.1996
69.	26134	मैसर्स जेंगा बद्रा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	08.01.1997
70.	26152	मैसर्स सुरक्षा एर्मनैट फण्ड इण्डिया लिमिटेड	10.01.1997

पी. अच्युता रामरुया
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

चेन्नई, दिनांक 22 जून 2005

सं. 8930 से 45053 तक/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01.	8930	मैसर्स केम्प्राजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
02.	11766	मैसर्स ट्रानसटेक इन्जीनियर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
03.	18010	मैसर्स फार्चुना क्रेडिट लिमिटेड
04.	19358	मैसर्स तेवंगर (मद्रास) फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
05.	24493	मैसर्स प्रसाद एन्टरटेनमेण्ट ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
06.	38797	मैसर्स आदित्या सॉफ्टवेयर (चेन्नई) प्राईवेट लिमिटेड
07.	41372	मैसर्स आर.एस. मारिनी एक्सट्रैक्ट्स लिमिटेड
08.	41569	मैसर्स सोनासाफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
09.	45037	मैसर्स सिफि प्लास्टिकामर्स लिमिटेड
10.	45052	मैसर्स सिफि इलेनिंग लिमिटेड
11.	45053	मैसर्स सत्यम वेबएक्सचेन्ज लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 24 जून 2005

सं. 29796 से 50251 तक/560(3)/एसईएस/2005---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर नीचे दिए गए कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
01.	29796	मैसर्स आशकरण फिनलीस प्राईवेट लिमिटेड
02.	32782	मैसर्स फ्लेक्सी ड्राईव एक्ज्यूपेन्ड्स लिमिटेड
03.	34456	मैसर्स जन्वश्री होम्स और रिसार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
04.	41534	मैसर्स करूर इन्फोनेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
05.	42651	मैसर्स अकन्दिता चिटस प्राईवेट लिमिटेड
06.	43014	मैसर्स योगम बीचफार्मस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
07.	47419	मैसर्स एवरमोर ईक्विट प्राईवेट लिमिटेड
08.	50251	मैसर्स सेलस्टियल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
09.	52924	मैसर्स मेट्रो कन्सुमरकेर प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

चेन्नई, दिनांक 30 जून 2005

सं. 1419 से 41959 तक/560(5)/2004---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01.	1419	मैसर्स मद्रास स्वदेशी एंपोरियम लिमिटेड
02.	5984	मैसर्स अलफा पेकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
03.	6098	मैसर्स मयूरा फैब्रस प्राईवेट लिमिटेड
04.	6267	मैसर्स सदरन अल्लाय फौण्डरीस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
05.	16981	मैसर्स पल्लावरम परमानेन्ट फण्ड लिमिटेड
06.	22033	मैसर्स मीना कार्तिक चिटस प्राईवेट लिमिटेड
07.	22825	मैसर्स हेरिटेज फाईनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
08.	27591	मैसर्स माला चिटस प्राईवेट लिमिटेड
09.	27901	मैसर्स माला क्रेडिट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	27990	मैसर्स कारणीसवरर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
11.	29870	मैसर्स होटल अरूणेदया प्राईवेट लिमिटेड
12.	30098	मैसर्स श्री कालीस्वरी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	31362	मैसर्स प्रास्पेरिटी कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
14.	32080	मैसर्स पटेल इण्डिया (मद्रास) प्राईवेट लिमिटेड
15.	32358	मैसर्स शिवगंगा स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	32479	मैसर्स विशेष बिल्डर्स लिमिटेड
17.	32638	मैसर्स जे.के.सी. सेक्यूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
18.	34216	मैसर्स थाम्बिकोटय टेक्सटाईल्स लिमिटेड
19.	34865	मैसर्स आयडियल बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
20.	35033	मैसर्स तुरुत्तणी विनायगा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
21.	35508	मैसर्स अरक्यूब डिस्ट्रिब्यूशन एण्ड कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
22.	39456	मैसर्स एस.के.के. प्लास्टिकाम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
23.	40198	मैसर्स श्री. अय्यप्पा आर्ये सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
24.	40497	मैसर्स कोलकता होम नीड्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	40639	मैसर्स इण्डवे सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
26.	41959	मैसर्स फ्यूचर पाइन्ट इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कास्मोस प्रोम्प्टैक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पांडिचेरी, दिनांक 27 जून 2005

सं. 1301/560(5)/2005—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कास्मोस प्रोम्प्टैक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. कण्णन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 22nd June 2005

No. A-35018/2/2000-Admn.II.—In pursuance of the approval of the competent authority in the office of the Union Public Service Commission, Shri O. P. Kautia, a regular Under Secretary of the Ministry of Steel at present on deputation to the post of Officer on Special Duty (Exam.) in the Commission's office is hereby repatriated to his parent cadre with effect from the afternoon of 22nd June, 2005 and his services are placed at the disposal of the Ministry of Steel with immediate effect.

2. This office notification of even number dated 04.12.2001 stands modified to the extent cited above.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 28th June 2005

No. 2/34/05-Admn./232.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Assistants in the Commission as Section Officer in that order on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 24.06.2005 till further orders:—

- (i) Shri Subrata Das
- (ii) Smt. Sharda Khanna
- (iii) Shri Prashant Kumar Singh
- (iv) Shri Arvind Kumar

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

The 04th July 2005

No. 2/34/05-Admn./728.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri M. N. Sastry, Assistant in the Commission as Section Officer on regular basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 01st July, 2005 till further orders.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/34/05-Admn./805.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Ram Pal Singh, Assistant as Section Officer in the Commission in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on adhoc basis for a period of three months with effect from 04.07.2005 (FN) or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/36/05-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Dal Chand, Section Officer as Under Secretary in the Commission in the scale of pay of Rs. 10,00-325-15,200/- in officiating capacity on adhoc basis for a period of three months with effect from 04.07.2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

MANAGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 28th June 2005

No. E-16015/1/EPL/04/Pers.II/1908.—Consequent upon appointment as Chief Manager (Admn.) in Ennore Port Limited, Chennai, on deputation basis for a period of three years, Shri Sanjay Kumar, Senior Commandant, CISF has relinquished the charge of the post of Senior Commandant, CISF, ChPT Chennai w.e.f. 03.05.2005 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

CURRENCY NOTE PRESS

Nashik Road, the 30th June 2005

No. 07/S-4.—The Following Officers (Group-'B', Gazetted) of Currency Note Press have retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.06.2005 (AN).

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Shri S. V. Kawale | Dy. Control Officer |
| 2. Shri A. S. Belgaonkar | Accounts Officer (Adhoc) |

R. G. BHOYTE
Chief Administrative Officer
for General Manager

The 01st July 2005

No. 08/S/S-61(T.O.).—Shri V. K. Roy, Supervisor, Currency Note Press, Nashik Road is promoted as Training Officer (Group 'B' Gazetted) purely on adhoc basis in the pay scale of Rs. 7450-225-11500/- with effect from 25.02.2005 to 30.06.2005.

The above adhoc promotion will not bestow on the promotee any claim for regular appointment and the adhoc service rendered by him would not count for the purpose of seniority in that grade for eligibility for promotion etc.

Shri V. K. Roy will work on his original post as Supervisor w.e.f. 01.07.2005.

R. G. BHOYTE
Chief Administrative Officer
for General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
DELHI

New Delhi-110002, the 01st July 2005

No. Admn. O.O. No. 20.—Consequent upon his Voluntary Retirement Shri Budh Singh, Senior Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the forenoon of 23.08.2005.

His date of birth is 01.12.1946 and date of appointment in Govt. Service is 10.08.1970.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-66, the 06th July 2005

No. AN-1/1467/51(G).—The undermentioned Officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth, have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to Pension Establishment
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	T. Parasannan	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005
2.	K. C. Sastry	<u>21.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
3.	S.K. Kanaujia	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005
4.	T. Sankara Rao	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005
5.	C. L. Khantwal	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005

1	2	3	4
6.	T. Jagannadha Rao	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005
7.	R. S. Chauhan	<u>20.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
8.	M. Tirumala Rao	<u>04.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
9.	Harkesh Chand Sharma	<u>01.07.45</u> 30.06.05	01.07.2005
10.	K. V. Srirangan	<u>16.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
11.	K. Ramachandra Moorthy	<u>16.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
12.	G. Parameswaran	<u>27.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
13.	K. Natarajan	<u>30.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
14.	Shaligram Armaran Katkar	<u>15.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005
15.	S. Muthurengan	<u>15.06.45</u> 30.06.05	01.07.2005

KANWALDEEP SINGH
Asstt. Controller General of Defence Accounts (Admn.)

DEPARTMENT OF COMMERCE

(SUPPLY DIVISION)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES &
DISPOSALS

New Delhi-110001, the 05th July 2005

No. A-32013/7/04/A-6.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Jain, Asstt. Director (QA) (Engineering), an officer of Junior Time Scale of Indian Inspection Service (Group 'A') to the post of Deputy Director (Quality Assurance) (Engineering), Senior Time Scale (Ordinary Grade) of the Service in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- from the date of taking over of charge i.e. from 16.05.2005 (Forenoon).

S. S. SHARMA
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

KHAN MANTRALAYA

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700006, the 28th June 2005

No. 1750/B/A-19011(1-SP)/05/19A.—The President is pleased to appoint Shri Soumen Paul, Asstt. Geologist Grade I, Geological Survey of India to the post of Geologist (Jr.) (Group 'A', Gazetted) in the same department in the

pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 15.04.2005 until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

The 01st July 2005

No. 1873/B/A-19012/(1-NKN)/02-19A.—Shri Nirod Kumar Nayak has been appointed by the Director General, Geological Survey of India as an Assistant Geologist Grade-I (Group 'B' Gazetted) in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of 16.11.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 1814/B/A-19012/(1-RPS)/02-19A.—Shri Raghwendra Pratap Singh has been appointed by the Director General, Geological Survey of India as an Assistant Geologist Grade-I in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of 30.03.2005 until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 16th June 2005

No. A-19011/379/2005-Estt. App.—On acceptance of Voluntary Retirement Shri K. T. Sadhwani, Asstt. Store Officer, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the Forenoon of 01.06.2005.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 01st July 2005

No. 10/2/2005/M.—In exercise of the power conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, D. R. Gehlot, Director (Monuments) hereby direct that no entry shall be charged at the Centrally Protected Monument Golkonda Fort, Hyderabad on every Thursday and Sundays w.e.f. 07.07.05 to 04.08.05, on account of Bonahi Festival of Sri Jagadamba & Mahakali.

D. R. GEHLOT
Director (Monuments)
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 14th June 2005

No. PD/7(21)/2004-R-IV/673.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 1, 2004 except Shri P. Raghukumar, at Sl. No. 12 and Shri S. R. Prasad, at Sl. No. 17 whose dates of appointment are with effect from the forenoon of August 9, 2004 and August 7, 2004 respectively, in an officiating capacity until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1.	Saxena Madan Mohan	SA/D
2.	Shaji C. Kumar	SB
3.	Chavan R. B.	SB
4.	Sharma Vijay	SB
5.	Kalyan P.	SA/D
6.	Paramasivan K.	SB
7.	Sharma Suman Smt.	SB
8.	Abhay Kumar	TMAN/D
9.	Balasubramanian Chathanari	SA/D
10.	Johnson C. G.	SB
11.	Purushotham B.	SB
12.	Raghukumar P.	SB
13.	Rathore Nand Kishore	SB
14.	Singh Pawan Kumar	SB
15.	Sivasankaran K.	SA/D
16.	Kurkundi J. H. Dr. (Kum)	SB
17.	Prasad S. R.	SA/D
18.	Sankesh Ram	SB
19.	Tiwari A. K.	SB
20.	Sagayaraj L. Casimir	SB
21.	Ranjit Sen	SB
22.	Manoj Kumar	SB
23.	Patil S. P.	SB
24.	Gaikwad V. G.	SA/D
25.	Patel A. J.	SA/D
26.	Arvind Kumar	SB
27.	Kore S. G.	SA/D

P. VENUGOPALAN
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 27th June 2005

No. 7/2(6)/2005-SUS/4702.—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Saini as Scientific Officer/D on initial pay of Rs. 10,000/- in the Directorate of Construction, Services & Estate Management of this Department in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. the forenoon of May 31, 2005 in a temporary capacity until further orders.

D. SURENDRAN
Under Secy.

No. 7/2(6)/2005-SUS/4703.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Raghunath Bagul as Scientific Officer/D on initial pay of Rs. 10,000/- in the Directorate of Construction, Services & Estate Management of this Department in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. the forenoon of May 6, 2005 in a temporary capacity until further orders.

D. SURENDRAN
Under Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 24th June 2005

No. DPS/10002/Recit./2620.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. K. S. Vijayalaxmi, Assistant Accountant, CAU, DPS, Mumbai as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- on adhoc basis in the same Directorate w.e.f. 02.05.2005 (FN) to 03.06.2005 (AN).

KISHAN T. LONDHE
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 24th June 2005

No. HWB/R/4(15)/2004/634.—The Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office) appoints Shri Kavasseri Narayanan Ramesh, Scientific Assistant/C, Heavy Water Plant (Manuguru) as Scientific Officer/SB in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- with effect from the forenoon of August 1, 2004 in the same office in a temporary capacity until further orders.

P. APPA RAO
Administrative Officer

The 29th June 2005

No. HWB/R/5(2)-M/2005/646.—The Chief Executive, Heavy Water Board (Central Office) appoints Shri Velagapudi Sreemannarayana, Junior Hindi Translator,

Heavy Water Plant (Manuguru) to officiate as Assistant Director (OL) in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from September 01, 2004 (Forenoon) to April 10, 2005 (Afternoon).

P. APPA RAO
Administrative Officer

The 30th June 2005

No. HWB/R/4(30)/2005/648.—The President is pleased to appoint Shri Bhanudas Tukaram More, Scientific Officer/SB of Heavy Water Plant (Manuguru) as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of August 1, 2001 in the same office in a temporary capacity until further orders.

R. K. SAINI
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 21st June 2005

No. NFC/ADM/PEN/EC-0796/586.—On attaining the age of superannuation, Shri P. A. Gopinathan, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12000-375-16500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2005.

A. PAPPACHAN
Administrative Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-2301/587.—On attaining the age of superannuation, Shri V. Chandramouli, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12000-375-16500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2005.

A. PAPPACHAN
Administrative Officer

Hyderabad-500062, the 1st July 2005

No. NFC/PAR.II/2-2005/1568.—Chief Executive, NFC appoints Shri G. Satyanarayana, Scientific Assistant 'C' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad as Scientific Officer/Engineer Grade "SB" (Scale of pay Rs. 7450-225-11500) w.e.f. 01.02.2005 in the same Unit, in an officiating capacity, until further orders.

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 22nd June 2005

No. A-19015/1/87-E.II.—Consequent upon the

acceptance of notice for voluntary retirement of Shri P. D. Padmanabhan, Section Officer by the Competent Authority in the Ministry of Civil Aviation under Rule 48-A of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, vide Ministry of Civil Aviation Estt. Order No. 33/2005 dated 8th June, 2005, Shri P. D. Padmanabhan, Section Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the forenoon of 01.07.2005.

CHANAN RAM
Dy. Director of Administration

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 10th June 2005

No. F48-AD(AT)/2005.—Shri V. Sridharan, Senior Private Secretary, Income Tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai retired from Government Service on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st May, 2005.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meghasha Trade & Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 19th May 2005

No. SES-2003/560(5)/05/32652/34/6273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meghasha Trade & Investment Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prag Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/88127/9013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prag Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Croese Port Handling Facilities Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/43770/9028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Croese Port Handling Facilities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eternal Infosolutions Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/100930/9075.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eternal Infosolutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Discovery Full Circle Tours & Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/110864/9079.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Discovery Full Circle Tours & Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Soafin India Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/41793/9087.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Soafin India

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sona Migma Foundry Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/05/31718/9095.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sona Migma Foundry Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taneja Sons Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/76875/9100.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Taneja Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khadse Saha Constructions Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/30656/9119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Khadse Saha Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhart Hospital Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/115351/9124.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sidhart Hospital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Menon and Menon Management Consultants
Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/128718/9129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Menon and Menon Management Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mala Hotel Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/05/31237/9135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mala Hotel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adworx Print-O-Pac Private Limited

New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/106122/9136.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Adworx Print-O-Pac Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. S. K. Polymers Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/33237/9141.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. S. K. Polymers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwivedi Law Office Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/124187/9146.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dwivedi Law Office Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. San Brothers Network Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/114678/9151.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. San Brothers Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Prakash & Associates Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/6393/9156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Om Prakash & Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhu Chawla Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/13022/9161.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Madhu Chawla Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vallabh Refineries Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/55/40107/9166.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vallabh Refineries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deen Bandhu Chits Private Limited
New Delhi-110019, the 30th June 2005

No. u/s.560(3)/SES/2005/05/30177/9172.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deen Bandhu Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary,

will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. N. Credit Services Limited

Kanpur-208001, the 28th June 2005

No. 560(5)/LC/SES/16883/984.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. N. Credit Services Limited has this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwarikesh Agro Products Private Limited

Kanpur-208001, the 29th June 2005

No. 560(5)/LC/SES/17231/989.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dwarikesh Agro Products Private Limited has this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanpur Bulk Transport Private Limited

Kanpur-208001, the 29th June 2005

No. 560(5)/LC/SES/6941/991.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanpur Bulk Transport Private Limited has this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hi-Tech Forge Limited

Jaipur, the 29th June 2005

No. ROC/JPR/560/4096/1077.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Hi-Tech Forge Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Path Ways Personal Development Skills Private
Limited

Jaipur, the 29th June 2005

No. ROC/JPR/560/15002/1081.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Path Ways Personal Development Skills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wens India Limited

Jaipur, the 29th June 2005

No. ROC/JPR/560/3350/1090.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from date hereof the name of M/s. Wens India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nayan Publication Private Limited

Gwalior-474009, the 20th April 2005

No. ROC-G/SES-05/Sec.560(3)/2005/7580/9125.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (three) months from the date hereof the name of M/s. Nayan Publication Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DR. RAJ SINGH
Registrar of Companies
M.P. & C.G.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kolkata-700020, the 1st July 2005

No. IPC/560/Master File-2/SES-03.—Notice is hereby given pursuant to Section 560 (3) of the Companies Act, 1956 that on the expiration of 90 (Ninety) days from the date hereof the names of the following Companies unless the objection is received from any person will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Reg. No.	Company Name
1	2	3
1.	52850	M/s. A & A Promoters Pvt. Ltd.
2.	81663	M/s. A. M. Tea Ltd.
3.	52933	M/s. A. M. D. Timber & Veneer Pvt. Ltd.
4.	39159	M/s. A. N. Concrete Pvt. Ltd.
5.	47378	M/s. A. T. Trackfastner India Pvt. Ltd.
6.	84488	M/s. Aapanjan Engineers Pvt. Ltd.
7.	89331	M/s. Aarpee Ispat Pvt. Ltd.
8.	70503	M/s. Aarvee Commodeal Pvt. Ltd.
9.	73207	M/s. Asshiyana Suppliers Pvt. Ltd.
10.	62882	M/s. Aaveri Impex Pvt. Ltd.
11.	58466	M/s. ABC Textiles Processing Pvt. Ltd.
12.	77602	M/s. Abhisekh Intra Pvt. Ltd.
13.	81073	Abhoo Fabricks Pvt. Ltd.
14.	40816	M/s. Able Consultants & Financial Services Pvt. Ltd.
15.	57876	M/s. ABM Impex Pvt. Ltd.
16.	85066	M/s. Acckland Dealcom Pvt. Ltd.
17.	55657	M/s. Accord Chemicals Pvt. Ltd.
18.	78683	M/s. Accumen Trading Company Pvt. Ltd.
19.	58012	M/s. ACE Consultants Pvt. Ltd.
20.	43621	M/s. Achha Makan Pvt. Ltd.
21.	40400	M/s. Acupressure Therapy Health Centre Pvt. Ltd.
22.	51016	M/s. Acushla Leather Creations Pvt. Ltd.
23.	36553	M/s. Adam & Eve Pvt. Ltd.
24.	33196	M/s. Additives & Preservatives (India) Pvt. Ltd.
25.	72743	M/s. Adeshra Jewellers Pvt. Ltd.

1	2	3
26.	62250	M/s. Adigum commodities Ltd.
27.	57856	M/s. Aditya Investment Pvt. Ltd.
28.	90047	M/s. Aditya Murarka & Co. Private Ltd.
29.	79896	M/s. Admire Commercial Pvt. Ltd.
30.	76326	M/s. Admire Vincom Pvt. Ltd.
31.	47033	M/s. ADP Office Equipments Pvt. Ltd.
32.	87910	M/s. ADS Aquatics Pvt. Ltd.
33.	90161	M/s. Advaita Infotech Pvt. Ltd.
34.	89925	M/s. Advantage Millennium Distribution Services Pvt. Ltd.
35.	41002	M/s. Agarwal Ropes & Steels Pvt. Ltd.
36.	54673	M/s. Agni Ujala Electronics Pvt. Ltd.
37.	42670	M/s. Agrani Commercial Pvt. Ltd.
38.	79824	M/s. Agrico Quality Pvt. Ltd.
39.	14408	M/s. Agricultural Machinery Mfg. Corpn. Pvt. Ltd.
40.	46739	M/s. Agro Freezer India Pvt. Ltd.
41.	73276	M/s. Ahmedabad Jaldhara Properties Pvt. Ltd.
42.	58829	M/s. Ajanta Pipes Pvt. Ltd.
43.	67387	M/s. Ajmala Leather Pvt. Ltd.
44.	79996	M/s. AKD Consultancy Services Pvt. Ltd.
45.	45946	M/s. Alamode Housing Pvt. Ltd.
46.	50729	M/s. Alfa Advisory & Services Pvt. Ltd.
47.	58638	M/s. Alfa Dimitries Shipping Company Pvt. Ltd.
48.	76325	M/s. Alice Tieup Pvt. Ltd.
49.	87859	M/s. All Seasons Agro Pvt. Ltd.
50.	84387	M/s. Allcredit Finance Company Ltd.
51.	37601	M/s. Allied Distributors Pvt. Ltd.
52.	88017	M/s. Allied Waterproffing Company Pvt. Ltd.
53.	69252	M/s. Alllike Commercial Pvt. Ltd.
54.	88257	M/s. Alter Ego Press Pvt. Ltd.
55.	52996	M/s. AM Consultants & Projects Pvt. Ltd.
56.	47130	M/s. Amar Avicine Enterprises Pvt. Ltd.
57.	37345	M/s. Amar Coke Pvt. Ltd.
58.	33028	M/s. Amrit Dealers Pvt. Ltd.
59.	30273	M/s. Amropt India Pvt. Ltd.

1	2	3
60.	69738	M/s. Anabhi Agencies Pvt. Ltd.
61.	94709	M/s. Anamika Rubber Products Pvt. Ltd.
62.	28802	M/s. Anamika Builders Pvt. Ltd.
63.	50697	M/s. Anand Green Leaves Ltd.
64.	45271	M/s. Anand Impex Pvt. Ltd.
65.	42147	M/s. Ananda Ashram Pvt. Ltd.
66.	50252	M/s. Anapol Real Estates Pvt. Ltd.
67.	45892	M/s. Angora Furs Pvt. Ltd.
68.	69938	M/s. Anihon Commercial Pvt. Ltd.
69.	40390	M/s. Anirban Construction Pvt. Ltd.
70.	69049	M/s. Anirudh Tie-Up Pvt. Ltd.
71.	34988	M/s. Anjaneya Engineering Pvt. Ltd.
72.	75822	M/s. Ankit Mercantile Pvt. Ltd.
73.	43203	M/s. Ankur Rasayan Udyog Pvt. Ltd.
74.	79770	M/s. Ankur Tradelinks Pvt. Ltd.
75.	85755	M/s. ANM Investment Pvt. Ltd.
76.	85927	M/s. ANM Securities Pvt. Ltd.
77.	71729	M/s. Antaeus Enterprises Pvt. Ltd.
78.	36753	M/s. Antaranga Prakashani Pvt. Ltd.
79.	81535	M/s. Antique Furn Pvt. Ltd.
80.	88574	M/s. Anuradha Infotech Pvt. Ltd.
81.	84955	M/s. Anurag Distributors Pvt. Ltd.
82.	77808	M/s. Anuvrat Fashions Pvt. Ltd.
83.	67383	M/s. Apeksha Syntex Pvt. Ltd.
84.	55293	M/s. APG Consultants Pvt. Ltd.
85.	44785	M/s. apollo Overseas Pvt. Ltd.
86.	34482	M/s. Appliances (India) Pvt. Ltd.
87.	61249	M/s. Appy Export Pvt. Ltd.
88.	69732	M/s. aptika Merchant Pvt. Ltd.
89.	78557	M/s. Aqua Fresh Pvt. Ltd.
90.	76716	M/s. Arati Sales Agencies Pvt. Ltd.
91.	42936	M/s. Aravali Packers Pvt. Ltd.
92.	81061	M/s. Arham Computers Pvt. Ltd.
93.	79990	M/s. Ariecom Systems Pvt. Ltd.
94.	69110	M/s. Arihant Synthetics & Fibres Pvt. Ltd.
95.	87746	M/s. Arita Engineering Pvt. Ltd.
96.	90292	M/s. ARK Progression Pvt. Ltd.

1	2	3
97.	69836	M/s. Arnold Dealing Pvt. Ltd.
98.	69829	M/s. Arnold Sales Pvt. Ltd.
99.	84257	M/s. Aroma Engineering & Construction Co. Pvt. Ltd.
100.	59699	M/s. Arora Associate & Electronics Pvt. Ltd.
101.	51457	M/s. Arora Lotteries Pvt. Ltd.
102.	79285	M/s. Arpee Trading Company Pvt. Ltd.
103.	36688	M/s. Arthabas Udyog (Investment) Pvt. Ltd.
104.	71326	M/s. Artwork Properties Pvt. Ltd.
105.	69765	M/s. Asambhav Chemical Pvt. Ltd.
106.	86162	M/s. Ascot Properties Pvt. Ltd.
107.	90639	M/s. Asha Plaza Pvt. Ltd.
108.	82652	M/s. Asha Kunj Tradelink Pvt. Ltd.
109.	75846	M/s. Ashim Kumar kar Exports Ltd.
110.	76923	M/s. Ashirvad Management Servives Pvt. Ltd.
111.	15346	M/s. Ashutosh Ayurved & Chemical Works Pvt. Ltd.
112.	48532	M/s. Ashwath Marketing Pvt. Ltd.
113.	69766	M/s. Askypack Supply Pvt. Ltd.
114.	42675	M/s. Asopa Brothers Pvt. Ltd.
115.	59917	M/s. Asopa Mercantile Pvt. Ltd.
116.	86281	M/s. Associated Freight Carriers Pvt. Ltd.
117.	71251	M/s. Astra Financial Services Ltd.
118.	60180	M/s. Ati Exports Ltd.
119.	47520	M/s. Atlantes Services Pvt. Ltd.
120.	37811	M/s. Atlas Commercial Pvt. Ltd.
121.	34613	M/s. Atomite (India) Pvt. Ltd.
122.	39166	M/s. Attair Synthetics Pvt. Ltd.
123.	41966	M/s. Atul Packaging Pvt. Ltd.
124.	59579	M/s. Auckland Apartments Pvt. Ltd.
125.	64956	M/s. Auriga Print-O-Trade Pvt. Ltd.
126.	62860	M/s. AV-Fait Export Pvt. Ltd.
127.	45727	M/s. Avadh Mechanical Projects and Finance Pvt. Ltd.
128.	67267	M/s. Avant Grade Impex Pvt. Ltd.
129.	27550	M/s. Avery Scales Pvt. Ltd.
130.	27551	M/s. Avery Testing Machine Pvt. Ltd.

1	2	3
131.	27552	M/s. Avery Weighting Machines Pvt. Ltd.
132.	57211	M/s. Aviaz Export Ispat Pvt. Ltd.
133.	15279	M/s. B. C. Sen Pvt. Ltd.
134.	42645	M/s. B. A. B. Medico Ltd.
135.	59454	M/s. B. B. Builders Pvt. Ltd.
136.	37383	M/s. B. B. C. International Pvt. Ltd.
137.	90567	M/s. B. N. Polypack Pvt. Ltd.
138.	62467	M/s. Babhnan Traders Pvt. Ltd.
139.	56790	M/s. Bagla Coal Sales Pvt. Ltd.
140.	84344	Baid Agencies Pvt. Ltd.
141.	84682	Baid Comutech Pvt. Ltd.
142.	56644	M/s. Baid Fincon Ltd.
143.	84683	M/s. Baid Infotech Pvt. Ltd.
144.	27925	M/s. Bajna Refractories Pvt. Ltd.
145.	75433	M/s. Bajoria Photographic Services Pvt. Ltd.
146.	91697	M/s. Balagarh Operating Company Pvt. Ltd.
147.	86881	M/s. Balaji Bio Agro Chemicals Pvt. Ltd.
148.	85423	M/s. Balaji Tracon Pvt. Ltd.
149.	94748	M/s. Balaram Web-Soft Pvt. Ltd.
150.	16998	M/s. Ballabhadras Agarwal Ltd.
151.	14012	M/s. Balsukh Refractories & Chemicals Ltd.
152.	66834	M/s. Bambrab Plantation Pvt. Ltd.
153.	47805	M/s. Band Box Commercial Pvt. Ltd.
154.	32685	M/s. Bani-Lon Research Chemcials Pvt. Ltd.
155.	63676	M/s. Bansraj Finance Ltd.
156.	37460	M/s. Barc Management Consultants Pvt. Ltd.
157.	34735	M/s. Barisha Sivechem Pvt. Ltd.
158.	34705	M/s. Barnagore Jute Factory Co. Ltd.
159.	65416	M/s. Barry Fairs Pvt. Ltd.
160.	17867	M/s. Barua Art Press Pvt. Ltd.
161.	95186	M/s. Baruipur Parents Garden Pvt. Ltd.
162.	69209	M/s. Basu Roy Constructions & Consultancy Pvt. Ltd.
163.	33101	M/s. Bathivala & Karani Impex Pvt. Ltd.
164.	86070	M/s. BBS Informotech Pvt. Ltd.

1	2	3
165.	59275	M/s. BDDA Holdings Pvt. Ltd.
166.	35244	M/s. Bear & Bull Investment Ltd.
167.	81360	M/s. Bells Controls Finance Ltd.
168.	59740	M/s. Bengal Agro Farm & Resorts Pvt. Ltd.
169.	12149	M/s. Bengal Bihar Transport Co. (Calcutta) Pvt. Ltd.
170.	86961	M/s. Bengal Cans & Containers Pvt. Ltd.
171.	10213	M/s. Bengal Electric Supply Corpn. Ltd.
172.	65662	M/s. Bengal Exports Pvt. Ltd.
173.	69411	M/s. Bengal Gases Pvt. Ltd.
174.	56925	M/s. Bengal Savings Organisation Ltd.
175.	31516	M/s. Bengal Smelters Pvt. Ltd.
176.	87328	M/s. Bengal Waterways Pvt. Ltd.
177.	60563	M/s. Bhagwandas Kanaialall (Agents) Pvt. Ltd.
178.	78321	M/s. Bhagyadeep Commodeal Pvt. Ltd.
179.	49451	M/s. Bhagyasree Traders Pvt. Ltd.
180.	87421	M/s. Bharat Biri Factory Pvt. Ltd.
181.	48101	M/s. Bharat Biscuit Consultancy Pvt. Ltd.
182.	25284	M/s. Bharat Wire & Metal Products Pvt. Ltd.
183.	15436	M/s. Bharati Investment & Industries Pvt. Ltd.
184.	88793	M/s. Bharatiya Krishi Bikash Pvt. Ltd.
185.	36292	M/s. Bhargava Sons Paper Pvt. Ltd.
186.	55411	M/s. Bhaskar Credit & Mercantiles Pvt. Ltd.
187.	8018	M/s. Bhattacharyya Sons Pvt. Ltd.
188.	69946	M/s. Bhubaneshwari Chitram Pvt. Ltd.
189.	76419	M/s. Bhusarga Resorts Pvt. Ltd.
190.	79576	M/s. Bhutra Commercial Pvt. Ltd.
191.	43292	M/s. Bil Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
192.	74300	M/s. Bina Capital Services Pvt. Ltd.
193.	88103	M/s. Birada Engineering Associates Pvt. Ltd.
194.	71851	M/s. Birla Information Technology Ltd.
195.	52603	M/s. Birla-DPL Steel & Industries Ltd.
196.	71321	M/s. Bishnupada Land Devlopment and Construction Co. Pvt. Ltd.

1	2	3
197.	49275	M/s. BKP Fiscal Services Pvt. Ltd.
198.	76411	M/s. Black & Bright Fastners Pvt. Ltd.
199.	49152	M/s. Black Diamond Cargo Movers Pvt. Ltd.
200.	64551	M/s. Black Opal Properties & Exports Pvt. Ltd.
201.	76006	M/s. Black Panther Transport Pvt. Ltd.
202.	62275	M/s. Blowplast Paper Pvt. Ltd.
203.	88033	M/s. Blue Bird Courier Pvt. Ltd.
204.	73922	M/s. Blue Skies Consultancy Pvt. Ltd.
205.	46534	M/s. Blue Star Shipping Company Pvt. Ltd.
206.	93884	M/s. Bodra Plastrochem Pvt. Ltd.
207.	43847	M/s. Bol Pole Pvt. Ltd.
208.	67479	M/s. Bolera Traders Pvt. Ltd.
209.	57544	M/s. Bonafide Credit & Savings Company Ltd.
210.	56268	M/s. Borned Shipping (ND) Pvt. Ltd.
211.	31363	M/s. Bose Exports Pvt. Ltd.
212.	86020	M/s. Bose Resorts & Hotels Pvt. Ltd.
213.	76872	M/s. Bowman Commercial Pvt. Ltd.
214.	75455	M/s. BRD Marketing Pvt. Ltd.
215.	26404	M/s. Bright Traders Pvt. Ltd.
216.	83098	M/s. Brijdham Commercial Pvt. Ltd.
217.	64415	M/s. Brijdham Distributors Pvt. Ltd.
218.	92622	M/s. Broadband Cablecom Ltd.
219.	41711	M/s. BSC Apartments Pvt. Ltd.
220.	49784	M/s. BSC Leasing & Finance Company Ltd.
221.	47110	M/s. Bsviller (Lift) Pvt. Ltd.
222.	38141	M/s. Burrabazar Chemicals Pvt. Ltd.
223.	54607	M/s. Bush Esskay Tea Pvt. Ltd.
224.	64350	M/s. CSM Pumps Pvt. Ltd.
225.	36245	M/s. CAD Systems Pvt. Ltd.
226.	27634	M/s. Calcutta & Kashmir Transport Pvt. Ltd.
227.	85906	M/s. Calcutta Green Retreat & Land Development Company Pvt. Ltd.
228.	81304	M/s. Calcutta Land Mark Company Pvt. Ltd.

1	2	3
229.	11270	M/s. Calcutta Metal Industries Pvt. Ltd.
230.	87687	M/s. Calcutta Software Company Pvt. Ltd.
231.	19373	M/s. Calcutta Steamers Pvt. Ltd.
232.	28484	M/s. Calcutta Tea Brokers Pvt. Ltd.
233.	41329	M/s. Calfoods Pvt. Ltd.
234.	58585	M/s. Caliente Systems India Pvt. Ltd.
235.	92095	M/s. Calsoft Digital Services Pvt. Ltd.
236.	89877	M/s. Caltek Chemicals Pvt. Ltd.
237.	40604	M/s. Can Consultants Pvt. Ltd.
238.	53541	M/s. Can Finvest Consultants Pvt. Ltd.
239.	37181	M/s. Canacona Commercials Pvt. Ltd.
240.	60206	M/s. Candor Estates Pvt. Ltd.
241.	49664	M/s. Canther Exports Pvt. Ltd.
242.	53989	M/s. Cap-Aid Finance and Investment Co. Ltd.
243.	65327	M/s. Capricorn Homes Pvt. Ltd.
244.	32638	M/s. Caravan Travels (India) Pvt. Ltd.
245.	53566	M/s. Care Capital Market Pvt. Ltd.
246.	84831	M/s. Carol Constructions & Development Co. Pvt. Ltd.
247.	62273	M/s. Castron Distributors Pvt. Ltd.
248.	92908	M/s. Cattleleya Infotech India Ltd.
249.	84692	M/s. CBR Agencies Pvt. Ltd.
250.	79686	M/s. Century Commodities Pvt. Ltd.
251.	43573	M/s. Chanda Flour Mills Pvt. Ltd.
252.	40176	M/s. Chandausi Rice Mills Ltd.
253.	22347	M/s. Chandi Charan Mitra & Co Pvt. Ltd.
254.	59026	M/s. Chandysons (Interiors) Pvt. Ltd.
255.	11224	M/s. Charu Chandra Estates Pvt. Ltd.
256.	53441	M/s. Chhabra Enterprises Pvt. Ltd.
257.	78556	M/s. Chilka Marine Seafoods Pvt. Ltd.
258.	44247	M/s. Ching Wah and Company (India) Pvt. Ltd.
259.	85955	M/s. Chokhani Enterprises Pvt. Ltd.
260.	21738	M/s. Chotanagpur Minerals & Agencies Pvt. Ltd.
261.	60667	M/s. Choudhary Fintrade Pvt. Ltd.
262.	68619	M/s. CHS Holdings Pvt. Ltd.

1	2	3
263.	30493	M/s. Civika Syntex Pvt. Ltd.
264.	79692	M/s. Classic Dealers Pvt. Ltd.
265.	22395	M/s. Clayton Construction Co. Pvt. Ltd.
266.	65694	M/s. Combined Professionals Pvt. Ltd.
267.	37890	M/s. Comfort Chemicals Pvt. Ltd.
268.	36168	M/s. Comind Care & Investors Pvt. Ltd.
269.	87258	M/s. Commencorp Trading Pvt. Ltd.
270.	61516	M/s. Computing Solutions Pvt. Ltd.
271.	25838	M/s. Contraco (Calcutta) Pvt. Ltd.
272.	46691	M/s. Comy Electronics Pvt. Ltd.
273.	63317	M/s. Conem Exports Pvt. Ltd.
274.	64416	M/s. Connect Impex Pvt. Ltd.
275.	93636	M/s. Conquest Insurance Agents Pvt. Ltd.
276.	59167	M/s. Consolidated Engineering Services Pvt. Ltd.
277.	87202	M/s. Consortium Flora Pvt. Ltd.
278.	44667	M/s. Consultants & Research Bureau of Industry Trade & Exim Pvt. Ltd.
279.	90572	M/s. Contract Software Solutions Pvt. Ltd.
280.	24698	M/s. Contract Supplies & Construction Pvt. Ltd.
281.	63308	M/s. Coolgradia Merchandise Pvt. Ltd.
282.	87631	M/s. Cornato Consultants Pvt. Ltd.
283.	90160	M/s. Corona Fabcon Pvt. Ltd.
284.	66581	M/s. Corrogonon Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
285.	42705	M/s. Cosmopolitan Leasing Co. Pvt. Ltd.
286.	80424	M/s. CRA Finance Pvt. Ltd.
287.	81150	M/s. Crazy Financial Services Pvt. Ltd.
288.	91925	M/s. Creative Connection Pvt. Ltd.
289.	85626	M/s. Crime Control Pvt. Ltd.
290.	65891	M/s. Criss Cross Finance & Investment Pvt. Ltd.
291.	81501	M/s. Cross Roads Commercial Pvt. Ltd.
292.	48313	M/s. Crystal Travels Pvt. Ltd.
293.	84501	M/s. Cyber Data System Pvt. Ltd.
294.	68990	M/s. Cygnet Vyapaar Pvt. Ltd.
295.	91102	M/s. Cytech-Com Pvt. Ltd.
296.	15638	M/s. D C Sethia Ltd.
297.	88830	M/s. D E Engineering Products Pvt. Ltd.

1	2	3
298.	45132	M/s. D P S Development Projects Pvt. Ltd.
299.	48688	M/s. D S R Turnkey Engineering Services Pvt. Ltd.
300.	72175	M/s. D. J. Surgical Pvt. Ltd.
301.	53407	M/s. D. Ruttonji (Liquor) Pvt. Ltd.
302.	78675	M/s. Daffodil Comptech Services Pvt. Ltd.
303.	69734	M/s. Damka Vyapaar Pvt. Ltd.
304.	9035	M/s. Damodar Coal Co. Pvt. Ltd.
305.	29157	M/s. Danda Bros Pvt. Ltd.
306.	57488	M/s. Dasmesh Finance Pvt. Ltd.
307.	28945	M/s. Datson Engineering Pvt. Ltd.
308.	90737	M/s. Davis Medicare Pvt. Ltd.
309.	91760	M/s. Deblina Share Services Pvt. Ltd.
310.	79134	M/s. Decision Supporting Centre Pvt. Ltd.
311.	48434	M/s. Dee Kay Computers and Data Consultancy Pvt. Ltd.
312.	30218	M/s. Deepak Rubber Industries Pvt. Ltd.
313.	88524	M/s. Delite Complex Maintenance Ltd.
314.	49097	M/s. Derby Petrocarbon Ltd.
315.	49096	M/s. Derby Rayon Ltd.
316.	78390	M/s. Detan Electricals & Control Pvt. Ltd.
317.	83956	M/s. Dexterous Software Systems Pvt. Ltd.
318.	87186	M/s. Dey Auto Park Pvt. Ltd.
319.	49453	M/s. Dhansree Products Pvt. Ltd.
320.	91420	M/s. Dharakti Duniya Publication Ltd.
321.	56046	M/s. Dhruvko Enterprises Pvt. Ltd.
322.	92716	M/s. Digital Net Stream Co. Pvt. Ltd.
323.	91054	M/s. Digitex Infoway Pvt. Ltd.
324.	41943	M/s. Dinyog Syntex Pvt. Ltd.
325.	45393	M/s. Dipali Cinema Pvt. Ltd.
326.	91625	M/s. Diphu Plywood Manufacturing Ltd.
327.	91977	M/s. Discount Infoline Com. Pvt. Ltd.
328.	50151	M/s. Disneyland Fantasy Ltd.
329.	69606	M/s. Distent Vin-Com Pvt. Ltd.
330.	94464	M/s. Distinctive Travels Pvt. Ltd.
331.	94778	M/s. Diurnal Appliances Pvt. Ltd.
332.	80921	M/s. Divya Drishti Commotrade Pvt. Ltd.
333.	63120	M/s. Divya Syntex Pvt. Ltd.

1	2	3
334.	89159	M/s. DNK Financial Services Pvt. Ltd.
335.	91904	M/s. Domino Systems Pvt. Ltd.
336.	60211	M/s. Dove Conclave Pvt. Ltd.
337.	57449	M/s. DPB Chemfab Fire Protection Pvt. Ltd.
338.	81308	M/s. Dream Orchard Ltd.
339.	18973	M/s. Drums (India) Pvt. Ltd.
340.	68538	M/s. Dulason Management Pvt. Ltd.
341.	84997	M/s. Duracont Plastics Pvt. Ltd.
342.	83134	M/s. Durgapur Ash & Allied Good Manufacturing Pvt. Ltd.
343.	70706	M/s. Durgesh Trading Company Pvt. Ltd.
344.	82073	M/s. Dutta Ghosh & Associates Pvt. Ltd.
345.	77635	M/s. Dwarka Financial Resources Pvt. Ltd.
346.	76865	M/s. Dynamic Fincom Pvt. Ltd.
347.	72731	M/s. E. K. Isolators Pvt. Ltd.
348.	53390	M/s. Eagle Coal Sales Pvt. Ltd.
349.	89158	M/s. East Coast Exim Pvt. Ltd.
350.	65849	M/s. East West Promoters Pvt. Ltd.
351.	53465	M/s. East-Point Courier Pvt. Ltd.
352.	77455	M/s. Eastern Kaolins Pvt. Ltd.
353.	28574	M/s. Eastern Marketing Services Pvt. Ltd.
354.	28371	M/s. Eastern Rolls & Steel Tapes Pvt. Ltd.
355.	76466	M/s. Eastern Spinners Ltd.
356.	30696	M/s. Effective Systems Pvt. Ltd.
357.	69835	M/s. Ekchakra Vinimoy Pvt. Ltd.
358.	40481	M/s. Eksons Medicinal Pvt. Ltd.
359.	61703	M/s. Elan Leather Accessories Pvt. Ltd.
360.	49992	M/s. Elcon Projects Pvt. Ltd.
361.	51142	M/s. Eldot Computer Systems Pvt. Ltd.
362.	94758	M/s. Elite Cement India Pvt. Ltd.
363.	44695	M/s. Embeecon Engineers Pvt. Ltd.
364.	59578	M/s. EMC Real Estates Pvt. Ltd.
365.	76019	M/s. Emerald Management Ltd.
366.	72476	M/s. Emery Suppliers Pvt. Ltd.
367.	85113	M/s. Empire Drawing Instrument Co. Pvt. Ltd.
368.	92196	M/s. Enigma Infotech Pvt. Ltd.

1	2	3
369.	38626	M/s. Enpal Construction Pvt. Ltd.
370.	82640	M/s. Enpro Estates Ltd.
371.	64251	M/s. Ensa Consultants Pvt. Ltd.
372.	77692	M/s. Epccon Marketing Pvt. Ltd.
373.	74129	M/s. Epica Dealcomm Pvt. Ltd.
374.	69827	M/s. Erode Agency Pvt. Ltd.
375.	33187	M/s. Eros Trading Co. Pvt. Ltd.
376.	46566	M/s. Esha Trades & Agencies Pvt. Ltd.
377.	76879	M/s. Essay Tar & Chemicals Pvt. Ltd.
378.	86550	M/s. Essem Project & Estate Services Pvt. Ltd.
379.	33533	M/s. Essen Synthetics (Ghaziabad) Pvt. Ltd.
380.	75821	M/s. Esskay Mercantile Pvt. Ltd.
381.	65951	M/s. Esspee Electro (India) Pvt. Ltd.
382.	82074	M/s. Estech Tech Trade Pvt. Ltd.
383.	24217	M/s. Eureka & Co. Pvt. Ltd.
384.	80526	M/s. Everbright Mechants Pvt. Ltd.
385.	63263	M/s. Everest Adhesives Pvt. Ltd.
386.	61481	M/s. Everest Industrial Agency Pvt. Ltd.
387.	88260	M/s. Everyday Food Pvt. Ltd.
388.	45354	M/s. Exint Tea Brokers Pvt. Ltd.
389.	17523	M/s. Expert Agency Service Pvt. Ltd.
390.	45457	M/s. Exposure (India) Gems & Jewellers Pvt. Ltd.
391.	17215	M/s. Express Printers Pvt. Ltd.
392.	69837	M/s. Exterior Merchants Pvt. Ltd.
393.	35103	M/s. Extrusions Agro Drainage Ltd.
394.	84221	M/s. F. P. Financial Services Pvt. Ltd.
395.	56624	M/s. Fairdeal Marketing Pvt. Ltd.
396.	60132	M/s. Faizi Savings and Investment Company Pvt. Ltd.
397.	60207	M/s. Falcon Estates Pvt. Ltd.
398.	56981	M/s. Fave Finvest India Ltd.
399.	38439	M/s. Fern Electromech & Co. Pvt. Ltd.
400.	65443	M/s. Fivestar Suppliers Pvt. Ltd.
401.	85588	M/s. Flad Construction Consultancy Pvt. Ltd.

1	2	3
402.	94879	M/s. Flagship Events & Entertainment Pvt. Ltd.
403.	81586	M/s. Flamingo Infomatics Pvt. Ltd.
404.	81587	M/s. Flamingo Systems Pvt. Ltd.
405.	24494	M/s. Flex-Tube Pvt. Ltd.
406.	54852	M/s. Flowell Rubber & Engineering Works Pvt. Ltd.
407.	51231	M/s. Flt-AMB Trading Pvt. Ltd.
408.	60848	M/s. Fluid Technic Pvt. Ltd.
409.	82829	M/s. Foresome Traders Pvt. Ltd.
410.	88445	M/s. Fortune Fusion Commotrade Pvt. Ltd.
411.	78290	M/s. Foto Man Sales Pvt. Ltd.
412.	87953	M/s. Four Colour Communication Pvt. Ltd.
413.	49966	M/s. Frontec Polymer Industries Pvt. Ltd.
414.	77989	M/s. Frontline Suppliers Pvt. Ltd.
415.	83578	M/s. Furn Antique (India) Ltd.
416.	60335	M/s. Futura Capital marketing Services Ltd.
417.	17568	M/s. G Biyani & Co. Ltd.
418.	85219	M/s. G L Finvest Pvt. Ltd.
419.	59916	M/s. G. Mercantile Pvt. Ltd.
420.	53431	M/s. G. D. C. D. Enterprises Pvt. Ltd.
421.	81901	M/s. G. D. Contact Electrodes Pvt. Ltd.
422.	74149	M/s. G. D. S. Home Products Pvt. Ltd.
423.	65282	M/s. G. V. Impex Pvt. Ltd.
424.	30893	M/s. Gadodia Pvt. Ltd.
425.	67386	M/s. Gagan Cabinet Pvt. Ltd.
426.	53724	M/s. Gajmukta Trade & Finance Pvt. Ltd.
427.	61155	M/s. Gamut Commodities Pvt. Ltd.
428.	61463	M/s. Ganapati Vanijya Pvt. Ltd.
429.	20627	M/s. Ganga Commercial Pvt. Ltd.
430.	86698	M/s. Garden Farm Nutritive Products Pvt. Ltd.
431.	88994	M/s. Garden Jute Products Pvt. Ltd.
432.	69834	M/s. Gargi Vyapaar Pvt. Ltd.
433.	75483	M/s. Gattani Finance & Investments Pvt. Ltd.
434.	90270	M/s. Gauri Ganesh Mill Pvt. Ltd.
435.	58886	M/s. Gaurja Fincon Marketing Pvt. Ltd.

1	2	3
436.	89562	M/s. GDM Enterprises Pvt. Ltd.
437.	80544	M/s. Gee Pee Polytex Pvt. Ltd.
438.	51748	M/s. Gee Pee Tex Pvt. Ltd.
439.	44279	M/s. Geet Purushottam Properties Pvt. Ltd.
440.	63292	M/s. Gehena Exports Pvt. Ltd.
441.	85414	M/s. Gem Jewellery Export Pvt. Ltd.
442.	81299	M/s. Gemus Trading Pvt. Ltd.
443.	31606	M/s. General Ceramic Industries Pvt. Ltd.
444.	20131	M/s. General Laboratories Pvt. Ltd.
445.	66013	M/s. Ghose Impex Pvt. Ltd.
446.	88832	M/s. Gimpex Commercial Pvt. Ltd.
447.	69782	M/s. Giriganga Vincom Pvt. Ltd.
448.	66640	M/s. GKW Properties Ltd.
449.	49790	M/s. Glasgow Builders Pvt. Ltd.
450.	87059	M/s. Glassfibre Reinforced Polymers Ltd.
451.	27485	M/s. Glaswegian Surveyors & Assessors Pvt. Ltd.
452.	50038	M/s. Godavari Industries Ltd.
453.	77042	M/s. Godavari Management Services Pvt. Ltd.
454.	74242	M/s. Goel Architects Pvt. Ltd.
455.	74241	M/s. Goel Developers Pvt. Ltd.
456.	30154	M/s. Goel Tubes Pvt. Ltd.
457.	44324	M/s. Gokul Dairy & Allied Products Pvt. Ltd.
458.	26776	M/s. Golden Fibre Fabrics Pvt. Ltd.
459.	40554	M/s. Golden Paints (India) Pvt. Ltd.
460.	78460	M/s. Good People Vyapaar Pvt. Ltd.
461.	78684	M/s. Goodluck Vinimay Pvt. Ltd.
462.	78459	M/s. Goodnews Vyapaar Pvt. Ltd.
463.	52656	M/s. Goodwill Retainers Pvt. Ltd.
464.	78876	M/s. Goodwin Merchants Pvt. Ltd.
465.	60590	M/s. Gorgeous Life General Finance & Investment Company Ltd.
466.	64626	M/s. Gourav Fiscal Services Pvt. Ltd.
467.	59433	M/s. Govardhan Merchandise Pvt. Ltd.
468.	70851	M/s. Green Horn Commercial Pvt. Ltd.
469.	65445	M/s. Green Mark Vanijya Pvt. Ltd.

1	2	3
470.	79943	M/s. Greenedge Resorts & Tourism Ltd.
471.	60768	M/s. Guardian Performance Polymers Ltd.
472.	42935	M/s. Gupta Polytex Pvt. Ltd.
473.	33974	M/s. H D Spices Pvt. Ltd.
474.	89958	M/s. H. M. C. Agencies Pvt. Ltd.
475.	72489	M/s. Haldia Industrial Gases Pvt. Ltd.
476.	40850	M/s. Haldia Mudran Pvt. Ltd.
477.	58828	M/s. Haldia Nitrates and Chemicals Pvt. Ltd.
478.	42829	Haldia Resorts Pvt. Ltd.
479.	46684	M/s. Hallowtrade and Finance Pvt. Ltd.
480.	88116	M/s. Hanns Cargo Care Pvt. Ltd.
481.	46023	M/s. Hanuman Bari Krishi Company Pvt. Ltd.
482.	38636	M/s. Hanuman (India) Pvt. Ltd.
483.	92129	M/s. Happy Amusements Pvt. Ltd.
484.	90401	M/s. Happy Home Kitchen Aids Ltd.
485.	53822	M/s. Hare Krishna Food Products Pvt. Ltd.
486.	89355	M/s. Harjas Hospitalities Pvt. Ltd.
487.	77182	M/s. Hemadri Properties Pvt. Ltd.
488.	45986	M/s. Herbert Chemicals Ltd.
489.	88738	M/s. Herby Cosmetics Pvt. Ltd.
490.	44527	M/s. Hercules Paper Board Pvt. Ltd.
491.	47363	M/s. Heritage Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
492.	31092	M/s. Hermesetas of India Ltd.
493.	90260	M/s. Hi-Tech Lubricants Pvt. Ltd.
494.	54915	M/s. Hi-Tech-Nirman Engineering and Construction Company Pvt. Ltd.
495.	45387	M/s. Highpolymeric Insulation Industries Pvt. Ltd.
496.	61839	M/s. Highway Marketing Pvt. Ltd.
497.	50990	M/s. Himadri Finvest Pvt. Ltd.
498.	39471	M/s. Himadri Wood Products Pvt. Ltd.
499.	22191	M/s. Hind Properties Pvt. Ltd.
500.	57671	M/s. Hiralall Oil Company Pvt. Ltd.
501.	43047	M/s. Hitek Development (India) Pvt. Ltd.
502.	28644	M/s. Hitread Engineering Works Pvt. Ltd.
503.	59698	M/s. HKM Consultancy Services Pvt. Ltd.

1	2	3
504.	59326	M/s. HMC Infotech Pvt. Ltd.
505.	91093	M/s. HMP Rallifan Marketing Company Ltd.
506.	65434	M/s. HMP Shahabad Cements Ltd.
507.	73281	M/s. HMP Snehlata Tamil Nadu Properties Pvt. Ltd.
508.	73278	M/s. HMP Snehlata Uttar Pradesh Properties Pvt. Ltd.
509.	53548	M/s. Hotel Status Pvt. Ltd.
510.	74617	M/s. Humraahi Commercial Pvt. Ltd.
511.	56982	M/s. Hyper Media Systems Pvt. Ltd.
512.	86260	M/s. I R Estates Services Pvt. Ltd.
513.	48575	M/s. I. P. A. Marketing Ltd.
514.	64423	M/s. Ideal Chambers Pvt. Ltd.
515.	78152	M/s. Ideal Tradelink Pvt. Ltd.
516.	76530	M/s. Imcon Engineers Pvt. Ltd.
517.	25367	M/s. Indian Building Elements Co. Pvt. Ltd.
518.	30612	M/s. Indian Polyamines & Industries Ltd.
519.	14535	M/s. Indian Teakwood Products Pvt. Ltd.
520.	81204	M/s. Indobel Composites Pvt. Ltd.
521.	75491	M/s. Indrani Sales Pvt. Ltd.
522.	71792	M/s. Indranil Hotels & Resorts Pvt. Ltd.
523.	69647	M/s. Indu Properties Pvt. Ltd.
524.	45701	M/s. Indu Silica Products Pvt. Ltd.
525.	14634	M/s. Indus Press & Publicity Pvt. Ltd.
526.	48297	M/s. Informatika Software Pvt. Ltd.
527.	90586	M/s. Information Keystrokes Online Pvt. Ltd.
528.	59852	M/s. INI Management Services Pvt. Ltd.
529.	89375	M/s. Innoplan (India) Pvt. Ltd.
530.	77365	M/s. Inset Merchandise Pvt. Ltd.
531.	87196	M/s. Institute of Hotel Management and Tourism Pvt. Ltd.
532.	28738	M/s. Instrument Systems Eastern Pvt. Ltd.
533.	39280	M/s. INSU Instruments Pvt. Ltd.
534.	29386	M/s. Insurance Consultants & Re-Insurance Brokers (India) Pvt. Ltd.
535.	27180	M/s. International Cafeteria Pvt. Ltd.

1	2	3
536.	68704	M/s. International Fund Management Company Ltd.
537.	36520	M/s. Intervision Video Agents Pvt. Ltd.
538.	91106	M/s. Intrepid Digitech Pvt. Ltd.
539.	82075	M/s. Investment Strategy and Risk Analysis Pvt. Ltd.
540.	94470	M/s. Iris Tea Estate Pvt. Ltd.
541.	77945	M/s. Ishan consultancy Pvt. Ltd.
542.	74596	M/s. Ishita Exim Pvt. Ltd.
543.	76727	M/s. ISR Marketing Pvt. Ltd.
544.	43659	M/s. ISS Holdings Ltd.
545.	49045	M/s. Jackers Investments & Finance Pvt. Ltd.
546.	82655	M/s. Jagdamba Management Pvt. Ltd.
547.	65762	M/s. Jagdhatri Advisory Pvt. Ltd.
548.	34913	M/s. Jain Jute Carriers Pvt. Ltd.
549.	79365	M/s. Jain Merchants Pvt. Ltd.
550.	30631	M/s. Jainsons Marketing Pvt. Ltd.
551.	32474	M/s. Jajodia Tim Co. Pvt. Ltd.
552.	11213	M/s. James & Co. Pvt. Ltd.
553.	58021	M/s. Janahith Savings & Credit (India) Ltd.
554.	21463	M/s. Janardan Rice Mills Pvt. Ltd.
555.	94985	M/s. Jani Novelties Pvt. Ltd.
556.	45671	M/s. Jap Construction & Fabrication Pvt. Ltd.
557.	46685	M/s. Jay Vijay Trade and Finance Pvt. Ltd.
558.	63716	M/s. Jayar Oils & Chemicals Pvt. Ltd.
559.	64075	M/s. Jaypee Capital Services Pvt. Ltd.
560.	45236	M/s. JCTR Chemicals Pvt. Ltd.
561.	73663	M/s. Jeevansudha Tradelink Pvt. Ltd.
562.	24857	M/s. Jeloka Enterprises Pvt. Ltd.
563.	30938	M/s. Jems Electromech Pvt. Ltd.
564.	92672	M/s. Jenson & Nicholson Industrial Coatings Pvt. Ltd.
565.	92683	M/s. Jenson & Nicholuson Powder Coatings Pvt. Ltd.
566.	75609	M/s. Jeyam Marble & Minerals Pvt. Ltd.
567.	72407	M/s. Jewel Pack India Pvt. Ltd.
568.	53481	M/s. Jorrine Carbon Pvt. Ltd.

1	2	3
569.	27824	M/s. Joshi Hire Purchase & Traders Pvt. Ltd.
570.	19972	M/s. Jute Fibre Co. Ltd.
571.	38041	M/s. Jyoti Vastralaya Pvt. Ltd.
572.	46849	M/s. K & R Mercantiles Pvt. Ltd.
573.	65385	M/s. K P B Books Pvt. Ltd.
574.	29398	M/s. Kajhuma India Pvt. Ltd.
575.	49395	M/s. Kaka Roadlinks Pvt. Ltd.
576.	53825	M/s. Kalika Coal & Allied Services Pvt. Ltd.
577.	72401	M/s. Kamakshi Exim Pvt. Ltd.
578.	37897	M/s. Kanoi Commercials Pvt. Ltd.
579.	30615	M/s. Kanoria Packaging Pvt. Ltd.
580.	90651	M/s. Kapeesh Marketing Pvt. Ltd.
581.	52932	M/s. Kapur Veneer & Wood Products Pvt. Ltd.
582.	87259	M/s. Karimbux Impex Pvt. Ltd.
583.	79182	M/s. Karnavati Dealcomm Pvt. Ltd.
584.	74125	M/s. Kasa Distributors Pvt. Ltd.
585.	60305	M/s. Kasturi Stockinvest Pvt. Ltd.
586.	62277	M/s. Kaveri Sugar Pvt. Ltd.
587.	85809	M/s. Kayhim Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
588.	77409	M/s. KBS Finvest Pvt. Ltd.
589.	40108	M/s. Kedarnath Mannalal Pvt. Ltd.
590.	29270	M/s. Kedia Forging and Engineering Works Pvt. Ltd.
591.	46016	M/s. Kedia Sarce Pvt. Ltd.
592.	75358	M/s. Kenilworth ABC Agencies Pvt. Ltd.
593.	74126	M/s. Kennex Dealers Pvt. Ltd.
594.	59071	M/s. Kernel Computers Pvt. Ltd.
595.	68151	M/s. Keshan Textiles Pvt. Ltd.
596.	65493	M/s. Khaitan Fiscal & Management Services Pvt. Ltd.
597.	66979	M/s. Khandelwal Farms Pvt. Ltd.
598.	21786	M/s. Khas Govindpur Coal Co. Pvt. Ltd.
599.	43957	M/s. Khatundi Constructions Pvt. Ltd.
600.	67192	M/s. KIC Polymers Pvt. Ltd.
601.	29726	M/s. Kimti Benefit Fund Pvt. Ltd.
602.	38072	M/s. Kinetic Services Pvt. Ltd.

1	2	3
603.	90040	M/s. Kinjal Export & Manufacturing Pvt. Ltd.
604.	27495	M/s. Kiron Jewellery Pvt. Ltd.
605.	50963	M/s. Kirti Holdings Pvt. Ltd.
606.	78300	M/s. Kishan Lakshmi Agro & Manure Products Pvt. Ltd.
607.	44028	M/s. Kishore Lal & Sons Pvt. Ltd.
608.	47661	M/s. Kit Kat Foods Pvt. Ltd.
609.	72741	M/s. Kitty Management Services Pvt. Ltd.
610.	43248	M/s. Kldies Toys Pvt. Ltd.
611.	31204	M/s. KLIM Commercial Co. Pvt. Ltd.
612.	57105	M/s. KMP Oils Pvt. Ltd.
613.	85143	M/s. KMR International Pvt. Ltd.
614.	30766	M/s. Kochar Brothers Pvt. Ltd.
615.	4085	M/s. Kohinoor Flour Milling Agency Pvt. Ltd.
616.	27322	M/s. Kojani Jute Baling Co. Pvt. Ltd.
617.	66515	M/s. Konkan Oils Pvt. Ltd.
618.	67190	M/s. KPK International Ltd.
619.	31840	M/s. Kransvip Engineering Pvt. Ltd.
620.	86033	M/s. Krativ Textstyles Pvt. Ltd.
621.	93853	M/s. KRD Software Pvt. Ltd.
622.	41944	M/s. KRN Exports Pvt. Ltd.
623.	89233	M/s. KSD Mercantile Pvt. Ltd.
624.	91720	M/s. Kspan Maritime Academy Pvt. Ltd.
625.	59988	M/s. Kuber Vyapaar Pvt. Ltd.
626.	76269	M/s. L. Madanlal Metals Pvt. Ltd.
627.	71197	M/s. LA Noire Fules Ltd.
628.	83690	M/s. Labpur Cold Storage Pvt. Ltd.
629.	80616	M/s. Lahoti Fintrade Pvt. Ltd.
630.	86739	M/s. Lakshmi Agencies & Services Pvt. Ltd.
631.	47071	M/s. Lallji Ram Chajumall Pvt. Ltd.
632.	60223	M/s. Lancy Housing Financial Services Ltd.
633.	58448	M/s. Landdowne Developers Pvt. Ltd.
634.	57279	M/s. Lapog Investment & Marketing Pvt. Ltd.
635.	72327	M/s. Lasani Construction Pvt. Ltd.

1	2	3
636.	63983	M/s. Laurel Merchants Pvt. Ltd.
637.	67493	M/s. Lavish Textiles Pvt. Ltd.
638.	83139	M/s. Lawboy Finvest Pvt. Ltd.
639.	82218	M/s. LCB Consultants Pvt. Ltd.
640.	57443	M/s. LEO Card Board Pvt. Ltd.
641.	79778	M/s. Lexsys Expotek Pvt. Ltd.
642.	89685	M/s. Life Guard Services Pvt. Ltd.
643.	52069	M/s. Limtex Advertising Pvt. Ltd.
644.	43597	M/s. Little Huts & Homes Pvt. Ltd.
645.	80946	M/s. Lokenath Consultancy Pvt. Ltd.
646.	80883	M/s. Longlife Dealcomm Pvt. Ltd.
647.	88749	M/s. Lords Exports Pvt. Ltd.
648.	78696	M/s. Lovkush Agencies Pvt. Ltd.
649.	63694	M/s. Lucknow Zarda Factory Pvt. Ltd.
650.	63909	M/s. Lumax Merchants Pvt. Ltd.
651.	74875	M/s. Lundia Steel & Fab Ltd.
652.	47307	M/s. M H T Foods Pvt. Ltd.
653.	22613	M/s. M P Builders Ltd.
654.	56776	M/s. M. Bhattacharyya Laboratories Pvt. Ltd.
655.	60164	M/s. M. D. S. Softech Pvt. Ltd.
656.	90566	M/s. M. R. Pollypack Pvt. Ltd.
657.	93917	M/s. M. S. C. Insurance Agents Pvt. Ltd.
658.	47173	M/s. Ma Tara Board & Paper Mill Pvt. Ltd.
659.	91349	M/s. Maa Infotrade Pvt. Ltd.
660.	88365	M/s. Maa Mangal Chandi Aluminium Pvt. Ltd.
661.	76099	M/s. Maa Saraswati Resources Pvt. Ltd.
662.	86930	M/s. Madhavlal & Company Pvt. Ltd.
663.	72587	M/s. Madhurima Goods Pvt. Ltd.
664.	80917	M/s. Madri Traders Pvt. Ltd.
665.	68050	M/s. Macy's Advisory Pvt. Ltd.
666.	38974	M/s. Magno Plas Pvt. Ltd.
667.	57139	M/s. Magnum Conclave Finance & Investment Ltd.
668.	69341	M/s. Mahadhan Tracon Pvt. Ltd.
669.	61237	M/s. Maharagyi Investments Pvt. Ltd.

1	2	3
670.	82193	M/s. Maharani Properties Pvt. Ltd.
671.	39996	M/s. Mahasangham Finance & Industrial Investment Pvt. Ltd.
672.	76168	M/s. Mahaveer Structural Pvt. Ltd.
673.	60185	M/s. Majumdar Exports Pvt. Ltd.
674.	78572	M/s. Malabar Pearl Pvt. Ltd.
675.	44590	M/s. Malhotra Brothers Pvt. Ltd.
676.	52747	M/s. Malsisaria Fiscal Services Pvt. Ltd.
677.	46689	M/s. Malta Trade and Finance Pvt. Ltd.
678.	75084	M/s. Mam Electricals Pvt. Ltd.
679.	77310	M/s. Mam Reprographics Pvt. Ltd.
680.	89510	M/s. Mam's Cosmetics Pvt. Ltd.
681.	75225	M/s. Manisha Consultancy Pvt. Ltd.
682.	48200	M/s. Mantry Exporters Pvt. Ltd.
683.	47078	M/s. Maria Consumer Products Pvt. Ltd.
684.	41373	M/s. Marlin Laboratories Pvt. Ltd.
685.	81737	M/s. Marmec Pvt. Ltd.
686.	74055	M/s. Marubhumi Goods & Services Pvt. Ltd.
687.	48973	M/s. Marvellon Industrial Plastics Pvt. Ltd.
688.	45228	M/s. Mascot Tannery Pvt. Ltd.
689.	46279	M/s. Mastermind Creative Consultants Ltd.
690.	72996	M/s. Maureen Fashion Pvt. Ltd.
691.	87741	M/s. Maxitranz Pvt. Ltd.
692.	56756	M/s. MBS Techmatix Pvt. Ltd.
693.	46261	M/s. Meera Village Resort Pvt. Ltd.
694.	81039	M/s. Mega Greenfields Pvt. Ltd.
695.	82985	M/s. Mega Screen Advertising & Marketing Pvt. Ltd.
696.	56284	M/s. Megatherm Projects Pvt. Ltd.
697.	25976	M/s. Mercantile Transport Pvt. Ltd.
698.	78957	M/s. Metro Goods Pvt. Ltd.
699.	42973	M/s. Metro Politan Builders Pvt. Ltd.
700.	24164	M/s. Micpo Manufacturers Pvt. Ltd.
701.	84453	M/s. Micro Impex Pvt. Ltd.
702.	73446	M/s. Mido Consultants Services Pvt. Ltd.
703.	88279	M/s. Millat Trading Company Pvt. Ltd.
704.	69844	M/s. Millia Vincom Pvt. Ltd.

1	2	3
705.	89741	M/s. Mindwork Softtech Pvt. Ltd.
706.	50680	M/s. Mink Information Pvt. Ltd.
707.	66824	M/s. Nink Leather Fashions Pvt. Ltd.
708.	87188	M/s. Minu Minerals Pvt. Ltd.
709.	78464	M/s. Miranda Merchants Pvt. Ltd.
710.	24680	M/s. Mitter Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
711.	86457	M/s. MMC Holdings Pvt. Ltd.
712.	92736	M/s. MMG Media Pvt. Ltd.
713.	51311	M/s. MMI Impex Pvt. Ltd.
714.	74463	M/s. Mobar Mining Ltd.
715.	22190	M/s. Mobile Finance Pvt. Ltd.
716.	17206	M/s. Mobility Pvt. Ltd.
717.	78209	M/s. Modern Dealcomm Pvt. Ltd.
718.	43321	M/s. Modern Publishers & Traders Pvt. Ltd.
719.	50420	M/s. Modern Spuncrete Pvt. Ltd.
720.	34229	M/s. Modi & Lakhota Construction Co. Pvt. Ltd.
721.	54321	M/s. Mohit Construction Pvt. Ltd.
722.	51718	M/s. Monex Consultants Pvt. Ltd.
723.	45051	M/s. Monex Finance Pvt. Ltd.
724.	28906	M/s. Monifreeze Pvt. Ltd.
725.	80488	M/s. Monoj Screen Printing and Knitting Works Pvt. Ltd.
726.	78095	M/s. Mridul Commercial Pvt. Ltd.
727.	79025	M/s. Mrignayani Suppliers Pvt. Ltd.
728.	67495	M/s. Mudita Chemical Pvt. Ltd.
729.	44249	M/s. Multi Estates Pvt. Ltd.
730.	87159	M/s. Multi Tech Socio Economic Survey Consultants and Enterprises
731.	93229	M/s. Multicon Housing Project Pvt. Ltd.
732.	45058	M/s. Multipurpose Developers Services Pvt. Ltd.
733.	72340	M/s. Multivision Projects Development Enterprises Ltd.
734.	67876	M/s. Muniraj Merchants Pvt. Ltd.
735.	76061	M/s. Munna Babu Foods Pvt. Ltd.
736.	34282	M/s. Murarka Electricals Pvt. Ltd.
737.	62950	M/s. Murex Exports Pvt. Ltd.

1	2	3
738.	83521	M/s. Myrinda Systems Pvt. Ltd.
739.	50035	M/s. N K Fiscal Services Pvt. Ltd.
740.	80636	M/s. N R B Interior & Designer Pvt. Ltd.
741.	23649	M/s. N R Mukherjee Pvt. Ltd.
742.	53726	M/s. N. G. International Pvt. Ltd.
743.	8570	M/s. N . M. Roychowdhury Co. Pvt. Ltd.
744.	71139	M/s. N. S. Woolen Garments Pvt. Ltd.
745.	31904	M/s. Naha Engineering & Co. Pvt. Ltd.
746.	79705	M/s. Naman Agencies Pvt. Ltd.
747.	90177	M/s. Naman Suppliers Pvt. Ltd.
748.	63053	M/s. Nandini Textiles Pvt. Ltd.
749.	91528	M/s. Narayani Nitwel Pvt. Ltd.
750.	57800	M/s. Narayani Granites Pvt. Ltd.
751.	79721	M/s. Narula Developers Pvt. Ltd.
752.	11031	M/s. Narundi Trading Pvt. Ltd.
753.	63436	M/s. Narvik Exim Pvt. Ltd.
754.	94203	M/s. Naskar Construction Pvt. Ltd.
755.	43829	M/s. Nathweld & Metal Industries Pvt. Ltd.
756.	9925	M/s. National Model Industries Ltd.
757.	22403	M/s. National Udyog Pvt. Ltd.
758.	47274	M/s. Nature Cure Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
759.	28375	M/s. Nav Bharat Plastics Moulders Pvt. Ltd.
760.	66552	M/s. Navaketan Emporium Pvt. Ltd.
761.	27700	M/s. Navdeepam Radio Plastic Industries Pvt. Ltd.
762.	63321	M/s. Navdurga Syntex Pvt. Ltd.
763.	35879	M/s. Navin Commercial Pvt. Ltd.
764.	45678	M/s. Navin Industrial Spares Pvt. Ltd.
765.	79204	M/s. Nerolac Commerce Pvt. Ltd.
766.	93635	M/s. New Age Insurance Agents Pvt. Ltd.
767.	93536	M/s. New Frontier Fire Fighter Pvt. Ltd.
768.	70834	M/s. New Health Products Company Pvt. Ltd.
769.	51652	M/s. New India Finance Ltd.
770.	85698	M/s. Newfield Modular Design Pvt. Ltd.
771.	77827	M/s. Newjet Marketing Pvt. Ltd.
772.	91860	M/s. Newlife Foundation Pvt. Ltd.

1	2	3
773.	39379	M/s. Newtech Rolls Mfg. & Properties Pvt. Ltd.
774.	28525	M/s. Nigam Brothers (Sales) Pvt. Ltd.
775.	90173	M/s. Nikhar Commercial Pvt. Ltd.
776.	63266	M/s. Nikhil Adcon Pvt. Ltd.
777.	35055	M/s. Nikunj Construction Co. Pvt. Ltd.
778.	81055	M/s. Nilyog Commercial Pvt. Ltd.
779.	85859	M/s. Nippon Techna Software Pvt. Ltd.
780.	72952	M/s. Nirikshan Goods & Supply Pvt. Ltd.
781.	62414	M/s. Nischinta Consultants Pvt. Ltd.
782.	86010	M/s. Norfrost AC Systems Pvt. Ltd.
783.	79478	M/s. North East Road Links Pvt. Ltd.
784.	86295	M/s. North Point Resorts Pvt. Ltd.
785.	65857	M/s. North West Projects Pvt. Ltd.
786.	37162	M/s. Northern India Blade Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
787.	74935	M/s. NRI Retreats Pvt. Ltd.
788.	53552	M/s. NV Servo Tech Pvt. Ltd.
789.	86087	M/s. Objectivity Software (India) Pvt. Ltd.
790.	51908	M/s. OBS Graphics Pvt. Ltd.
791.	56243	M/s. Odyssey Housing Company Pvt. Ltd.
792.	28022	M/s. Okayti Tea Estate Pvt. Ltd.
793.	57559	M/s. Olympus Books Pvt. Ltd.
794.	63658	M/s. Om Anandam Developers Pvt. Ltd.
795.	52184	M/s. Omkrishna Developers & Contractors Pvt. Ltd.
796.	37332	M/s. Orange Valley Tea Ltd.
797.	80674	M/s. Orbit Appliances Pvt. Ltd.
798.	70965	M/s. Orbit Construction Pvt. Ltd.
799.	59727	M/s. Orion Inter Trade Pvt. Ltd.
800.	64005	M/s. Ormag Global Pvt. Ltd.
801.	75332	M/s. Oster Trading Pvt. Ltd.
802.	63887	M/s. Otoklin Vinimay Pvt. Ltd.
803.	72139	M/s. Otto Packaging Pvt. Ltd.
804.	57078	M/s. Over-Take Savings Housing & Finance Company Ltd.
805.	34109	M/s. Own (India) Finance Ltd.
806.	88007	M/s. P D P Polymer Pvt. Ltd.
807.	33941	M/s. P H Associates Pvt. Ltd.

1	2	3
808.	46971	M/s. P K Valves Pvt. Ltd.
809.	94519	M/s. P. K. Das Associates & Construction Pvt. Ltd.
810.	31643	M/s. P. K. Tea Pvt. Ltd.
811.	62399	M/s. P. O. D. Agri Forestry Pvt. Ltd.
812.	48405	M/s. P. S. Rubber Udyog Pvt. Ltd.
813.	75238	M/s. Pacific Tradecom Pvt. Ltd.
814.	71740	M/s. Padmavati Consultancy Services Pvt. Ltd.
815.	93125	M/s. Paes Brands Sports Pvt. Ltd.
816.	39952	M/s. Paharimata Properties Pvt. Ltd.
817.	58912	M/s. Palace Exports Pvt. Ltd.
818.	59930	M/s. Pallibandhu Savings and Investment Company Ltd.
819.	84679	M/s. Paradise Vegetation Farm Pvt. Ltd.
820.	76376	M/s. Paramount Confectioners & Traders Pvt. Ltd.
821.	73799	M/s. Paramount Vision Pvt. Ltd.
822.	74056	M/s. Paras Vintrade Pvt. Ltd.
823.	69861	M/s. Parikrama Mercantile Pvt. Ltd.
824.	51422	M/s. Paramount Worldwide Constructions Pvt. Ltd.
825.	63231	M/s. Parrot Nestcon Pvt. Ltd.
826.	81522	M/s. Pasco Financing & Leasing Company Pvt. Ltd.
827.	51810	M/s. Patokola Rice Mills Pvt. Ltd.
828.	86875	M/s. Patriot Security Services Pvt. Ltd.
829.	32495	M/s. Pbhag Chemicals Pvt. Ltd.
830.	75211	M/s. Pearl Tradecom Pvt. Ltd.
831.	89764	M/s. Pecon Engineers (India) Pvt. Ltd.
832.	52631	M/s. Pecan Industrial Fabrics Pvt. Ltd.
833.	22659	M/s. Pelican Engineering Corp. Pvt. Ltd.
834.	66546	M/s. Percy Iron Pvt. Ltd.
835.	76422	M/s. Perfect Wires Pvt. Ltd.
836.	60208	M/s. Petunia Holdings Pvt. Ltd.
837.	86675	M/s. Pinnacle Shipping Pvt. Ltd.
838.	75236	M/s. Pitambari Tradecom Pvt. Ltd.
839.	18216	M/s. Plasto Iron (India) Pvt. Ltd.
840.	36333	M/s. Plaza Electronics Pvt. Ltd.

1	2	3
841.	80978	M/s. Plutus Infotech Pvt. Ltd.
842.	68015	M/s. Plutus Tours & Travels Pvt. Ltd.
843.	42997	M/s. PMP Sales Pvt. Ltd.
844.	11582	M/s. Poddar Mining Corp. Pvt. Ltd.
845.	57067	M/s. Polykyd Resin Pvt. Ltd.
846.	28023	M/s. Poolbong Tea Garden Pvt. Ltd.
847.	90701	M/s. Prabhat Rajani Institute of Information Technology Pvt. Ltd.
848.	57659	M/s. Prabhu Nibas Housing & Land Development Pvt. Ltd.
849.	48400	M/s. Pragati Gears Ltd.
850.	37377	M/s. Pragati Projects Pvt. Ltd.
851.	81943	M/s. Prakash Sales Agency Pvt. Ltd.
852.	61032	M/s. Prakritplant Media Ltd.
853.	18599	M/s. Prasad & Stephens (India) Pvt. Ltd.
854.	39114	M/s. Prasad Commercial Pvt. Ltd.
855.	50066	M/s. Prasenacentre Engineers Pvt. Ltd.
856.	26917	M/s. Pratapmal Gobindram (Pharmaceutical) Pvt. Ltd.
857.	73108	M/s. Premier Adcon Services Pvt. Ltd.
858.	36320	M/s. Preti Marketing Pvt. Ltd.
859.	63642	M/s. Primasonic Television Pvt. Ltd.
860.	82984	M/s. Prime Petroproducts Pvt. Ltd.
861.	60209	M/s. Primrose Estates Pvt. Ltd.
862.	60005	M/s. Prink Finance & Investment Company Ltd.
863.	80799	M/s. Print-O-Advertisement Pvt. Ltd.
864.	40058	M/s. Printed Circuits International Ltd.
865.	24324	M/s. Printers & Stationers (India) Pvt. Ltd.
866.	42755	M/s. Printoflex Pvt. Ltd.
867.	88904	M/s. Procomann Pvt. Ltd.
868.	87950	M/s. Prolaug Computers Pvt. Ltd.
869.	88474	M/s. Promega Aircon Impex Pvt. Ltd.
870.	88134	M/s. Prosoft Engineers & Associates Pvt. Ltd.
871.	90802	M/s. Prosys E. Com Pvt. Ltd.
872.	68192	M/s. Protex Syntex Pvt. Ltd.
873.	42495	M/s. Protostar Investment Pvt. Ltd.
874.	50854	M/s. Prudential Services Pvt. Ltd.

1	2	3
875.	86896	M/s. PSA Marketing Pvt. Ltd.
876.	49052	M/s. Puja Turnkeys Pvt. Ltd.
877.	16069	M/s. Pure Drug & Chemical Laboratory Pvt. Ltd.
878.	86733	M/s. Pure Home Products Pvt. Ltd.
879.	78466	M/s. Pushpak Commodities Pvt. Ltd.
880.	72360	M/s. Quality Frites Ltd.
881.	63480	M/s. Quilemen Vinimay Pvt. Ltd.
882.	23048	M/s. R. Sen & Co. Timber Treatment Pvt. Ltd.
883.	32608	M/s. R. B. H. Finance & Investment Ltd.
884.	85945	M/s. R. K. Embroidery Pvt. Ltd.
885.	58347	M/s. R. K. Land & House Promoters Pvt. Ltd.
886.	27590	M/s. R. L. Saraf & Co. (June & Gunny) Pvt. Ltd.
887.	57050	M/s. R. R. Confectioners Pvt. Ltd.
888.	59919	M/s. R. R. Mercantile Pvt. Ltd.
889.	37259	M/s. Raas Marketing Pvt. Ltd.
890.	51621	M/s. Raceway Components Pvt. Ltd.
891.	30609	M/s. Rachna Syntex Pvt. Ltd.
892.	40140	M/s. Radha Krishna Rice Mills Pvt. Ltd.
893.	84602	M/s. Radhe Finvest Pvt. Ltd.
894.	76873	M/s. Radiant Distributors Pvt. Ltd.
895.	69722	M/s. Radix Solutions Pvt. Ltd.
896.	55384	M/s. Raghav Tubes Pvt. Ltd.
897.	42943	M/s. Rahul Polytex Pvt. Ltd.
898.	44377	M/s. Rai Singh Properties Pvt. Ltd.
899.	20030	M/s. Railway Labour Ltd.
900.	43550	M/s. Raisons Agro Industries Pvt. Ltd.
901.	88318	M/s. Raj Refreshment Pvt. Ltd.
902.	41163	M/s. Raja Cold Storage Pvt. Ltd.
903.	44743	M/s. Rajasthan Electro Systems Pvt. Ltd.
904.	19474	M/s. Rajgarhia Trading Co. Pvt. Ltd.
905.	65035	M/s. Rajlakshi Food Products Pvt. Ltd.
906.	75227	M/s. Rajput Engineering (India) Company Pvt. Ltd.
907.	82806	M/s. Rakesh Print Pvt. Ltd.
908.	91098	M/s. Ralliwolf HMP Marketing Co. Ltd.

1	2	3
909.	89269	M/s. Ranjita Creations Pvt. Ltd.
910.	43155	M/s. Ratan Deep Estates Pvt. Ltd.
911.	16089	M/s. Rays Pvt. Ltd.
912.	89323	M/s. RCG Technologies Pvt. Ltd.
913.	60190	M/s. RDG Computers Pvt. Ltd.
914.	66554	M/s. Re'bena Cosmetics Pvt. Ltd.
915.	79312	M/s. Reckon Dealers Pvt. Ltd.
916.	91696	M/s. Readstar Enterprises Pvt. Ltd.
917.	46102	M/s. Redsun Shiva Circuits Pvt. Ltd.
918.	42510	M/s. Relevance Commercial Pvt. Ltd.
919.	83032	M/s. Reliable Express Pvt. Ltd.
920.	24312	M/s. Reliable Metal Industries Pvt. Ltd.
921.	74688	M/s. Reliable Radiators (Calcutta) Pvt. Ltd.
922.	63097	M/s. Reliant Leasing & Securities Pvt. Ltd.
923.	43107	M/s. Resource Business Services Pvt. Ltd.
924.	88266	M/s. Rex Apartments Pvt. Ltd.
925.	88182	M/s. Rex Developers Pvt. Ltd.
926.	80386	M/s. Ridhiyam Impex Pvt. Ltd.
927.	68980	M/s. Ringer Tieup Pvt. Ltd.
928.	29583	M/s. Rise Savings & Chit Fund Pvt. Ltd.
929.	59648	M/s. Rita Paperchem Pvt. Ltd.
930.	91912	M/s. River and Estuary Management Services Pvt. Ltd.
931.	52741	M/s. RKAK Marketing Pvt. Ltd.
932.	59918	M/s. RKO Mercantile Pvt. Ltd.
933.	91579	M/s. RMS Solutions Pvt. Ltd.
934.	30635	M/s. Roberts Mclean Services Pvt. Ltd.
935.	32561	M/s. Roberts Mclean Cosmetics Pvt. Ltd.
936.	48230	M/s. Robin Exports Pvt. Ltd.
937.	50812	M/s. Rocket Housing Finance Company Pvt. Ltd.
938.	49053	M/s. Rohan Engineers Pvt. Ltd.
939.	32563	M/s. Rohcom Trading & Investment Ltd.
940.	80177	M/s. Rohit Commerce Pvt. Ltd.
941.	60451	M/s. Roland Petro Products Pvt. Ltd.
942.	78465	M/s. Rolland Sales Services Pvt. Ltd.
943.	50796	M/s. Rotomac Services Pvt. Ltd.

1	2	3
944.	81931	M/s. Roy Tek Consultants Pvt. Ltd.
945.	59040	M/s. Roy Trading India Pvt. Ltd.
946.	80901	M/s. Royal Falcom Exim Pvt. Ltd.
947.	66616	M/s. Royal Tanneries Pvt. Ltd.
948.	87172	M/s. Roych Organics Pvt. Ltd.
949.	70176	M/s. Rozelle Merchandise Pvt. Ltd.
950.	54842	M/s. RRNK Share & Stock Broking Services Pvt. Ltd.
951.	90117	M/s. RS Developers Pvt. Ltd.
952.	67417	M/s. Rubec Tours & Courier Services Pvt. Ltd.
953.	78310	M/s. Rudira Enterprises Pvt. Ltd.
954.	52252	M/s. Ruia Housing Development Pvt. Ltd.
955.	87566	M/s. Rumani Hotels & Resorts Pvt. Ltd.
956.	63290	M/s. Runner Courier and Cargo Pvt. Ltd.
957.	67429	M/s. Ruptara Abhra Pvt. Ltd.
958.	66543	M/s. Ruptara Food Pvt. Ltd.
959.	76036	M/s. Rurmial Ratanlal Traders Pvt. Ltd.
960.	80604	M/s. Rusel Structures Pvt. Ltd.
961.	37604	M/s. S & C Specialities Pvt. Ltd.
962.	8913	M/s. S S Devi's Jambad Coal Concern Pvt. Ltd.
963.	83638	M/s. S S K Indica Software Pvt. Ltd.
964.	40175	M/s. S S Marine Pvt. Ltd.
965.	57125	M/s. S. D. Nirman Housing Development & Finance Company Ltd.

T. P. SHAMI
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Start Icon Private Limited
Panaji, the 28th June 2005

No. 24-03066/G/560(3)/420.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Start Icon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Exotic Bike Tours Private Limited
Panaji, the 28th June 2005

No. 24-03163/G/560(3)/423.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Exotic Bike Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nova Shares and Securities Private Limited
Panaji, the 28th June 2005

No. 24-1727/G/560(3)/426.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nova Shares and Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Hyderabad-500195, the 24th June 2005

No. RAP/FTS/560(3)/2001.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 read with Circular No. 10/2000 vide letter No. 1/5/2000-CL.V dated 20.09.2000 issued by the Department of Company Affairs, Government of India, that at the expiration of three months hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company	Date of Incorporation
1	2	3	4
1.	25093	M/s Patel Marketing Pvt. Ltd.	03.09.1996
2.	24076	M/s. ARM Harris Communication (India) Pvt. Ltd.	14.05.1996

1	2	3	4
3.	24272	M/s. Vinar Fabrics Pvt. Ltd.	05.06.1996
4.	26514	M/s. Sukra Project Pvt. Ltd.	25.12.1997
5.	26035	M/s. Arcin Impex Pvt. Ltd.	26.12.1996
6.	22999	M/s. Sri Varshini Chits Pvt. Ltd.	25.01.1996
7.	24471	M/s. Satyam Asbestos Products Pvt. Ltd.	28.06.1996
8.	25630	M/s. Granada Software Consultancy Ltd.	28.06.1996
9.	25987	M/s. Earasha Information Systems Pvt. Ltd.	05.05.1996
10.	25701	M/s. Sampradaya Chit Fund Pvt. Ltd.	13.11.1996
11.	22548	M/s. Swastik Sai Enterprises Pvt. Ltd.	11.12.1995
12.	23198	M/s. Robot Benefit Fund Ltd.	13.02.1996
13.	23916	M/s. Vinimaya Hire Purchase Finance Ltd.	30.04.1996
14.	24151	M/s. Sama Indcom Pvt. Ltd.	22.05.1996
15.	24307	M/s. Sri Shyam Jewellers Impex Pvt. Ltd.	10.06.1996
16.	24492	M/s. Dayfresh Flowers Ltd.	01.07.1996
17.	24279	M/s. Global Real Estates Ltd.	06.06.1996
18.	25316	M/s. G.V.S. Constructions Pvt. Ltd.	27.09.1996
19.	26910	M/s. Brilliant Agro Farms Pvt. Ltd.	17.04.1997
20.	25485	M/s. Ridah Transport Pvt. Ltd.	14.10.1996
21.	26823	M/s. Indus International Market Ltd.	04.04.1997
22.	26991	M/s. Vishal Fincorp Services Ltd.	29.04.1997
23.	23994	M/s. K.V. R. Environmental Monitoring & Research Laboratories Pvt. Ltd.	06.05.1996
24.	25635	M/s. Cotton Brown & Meckenzie Industries Ltd.	05.11.1996
25.	20835	M/s. Sri Lands Pvt. Ltd.	26.06.1995
26.	20947	M/s. Scott Foods and Feeds Pvt. Ltd.	05.07.1995

1	2	3	4
27.	21738	M/s. Highclass Finance & Investment Pvt. Ltd.	18.09.1995
28.	21987	M/s. Sri Emgee Transport Pvt. Ltd.	12.10.1995
29.	16882	M/s. Hysun India Ltd.	12.01.1994
30.	16041	M/s. ARM Finance Ltd.	21.07.1993
31.	20585	M/s. Jubilee Impex Pvt. Ltd.	05.06.1995
32.	21798	M/s. Avanti Organics Ltd.	25.09.1995
33.	21085	M/s. VCR Steel Re-Rolling Mills Ltd.	19.07.1995
34.	21259	M/s. Wave Organics Ltd.	08.05.1995
35.	20478	M/s. Sai Maharaj Pharmaceutical Pvt. Ltd.	26.05.1995
36.	16045	M/s. Pramod Impex Pvt. Ltd.	21.07.1993
37.	18126	M/s. Sagar Milk Foods Ltd.	12.08.1994
38.	21297	M/s. Uni-Maize Processing Engineers Pvt. Ltd.	02.08.1995
39.	22249	M/s. Sumu Drugs and Pharmaceutical Pvt. Ltd.	15.11.1995
40.	20981	M/s. Sri Venugopal Hire Purchase & Financier Pvt. Ltd.	07.07.1995
41.	21728	M/s. Aditya Fleurs Ltd.	15.09.1995
42.	21642	M/s. Indus Harita Farms Ltd.	06.09.1995
43.	20937	M/s. Parvati Overseas Pvt. Ltd.	05.07.1995
44.	21856	M/s. Swamy Financial Services Pvt. Ltd.	27.09.1995
45.	20595	M/s. Megacity Communications Ltd.	05.06.1995
46.	20648	M/s. Euro Fine Metallics Pvt. Ltd.	08.06.1995
47.	20589	M/s. Saisudha Chit Fund Pvt. Ltd.	05.06.1995
48.	20375	M/s. Alrich Florex Ltd.	17.05.1995
49.	20639	M/s. Zenith Agritech Ltd.	08.06.1995
50.	20607	M/s. Gudapati Constructions Pvt. Ltd.	07.06.1995
51.	20334	M/s. Satyasri Leasing and Finance Pvt. Ltd.	15.05.1995
52.	18238	M/s. Saaketa Securities Ltd.	05.09.1994
53.	19101	M/s. Kora Roses Ltd.	30.12.1994
54.	15447	M/s. P. R. Agro Tech Ltd.	25.02.1993

1	2	3	4
55.	15908	M/s. P. V. R. Investment Pvt. Ltd.	24.06.1993
56.	18723	M/s. D. R. R. Finance Ltd.	10.11.1994
57.	18916	M/s. Sri Bhavya Sai Commercial Finance Ltd.	09.12.1994
58.	18754	M/s. Nichit Transport Carriers Pvt. Ltd.	15.11.1994
59.	22977	M/s. Dogra Estate Pvt. Ltd.	23.01.1996
60.	18008	M/s. Yamini Foods Pvt. Ltd.	27.07.1994
61.	18762	M/s. Panchavati Financial Services Pvt. Ltd.	15.11.1994
62.	15093	ESS EL VEE Electrical Instalations Pvt. Ltd.	02.12.1992
63.	22798	M/s. Radiant Sheep Pvt. Ltd.	05.01.1996
64.	23486	M/s. Intensive Capitals Ltd.	11.03.1996
65.	24122	M/s. Indo America Finance Ltd.	17.05.1996
66.	26049	M/s. Aswini Organics Pvt. Ltd.	27.12.1996
67.	25829	M/s. Bhavishya Financial Services Pvt. Ltd.	28.11.1996
68.	26014	M/s. D. V. S. Rao Leasing and Hire Purchase Finance Pvt. Ltd.	23.12.1996
69.	26134	Thunga Bhadra Builders Pvt. Ltd.	08.01.1997
70.	26152	M/s. Suraksha Permanent Fund India Ltd.	10.01.1997

P. ATCHUTHA RAMAIAH
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 22nd June 2005

No. 8930 to 45053/560(3)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	8930	M/s. Chemproject Pvt. Ltd.
2.	11766	M/s. Transtech Engineers and Exporters Pvt. Ltd.
3.	18010	Ms/. Fortuna Credit Ltd.
4.	19358	M/s. Thevanger (Madras) Finance Pvt. Ltd.
5.	24493	M/s. Prasad Entertainment Group Pvt. Ltd.
6.	38797	M/s. Aditya Softwae (Chennai) Pvt. Ltd.
7.	41372	M/s. RS Marinee Extracts Ltd.
8.	41569	M/s. Sonasoft Solutions Pvt. Ltd.
9.	45037	M/s. Sify Plasticommerce Ltd.
10.	45052	M/s. Sify Learning Ltd.
11.	45053	M/s. Satyam Webexchange Ltd.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 24th June 2005

No. 29796 to 50251/560(3)/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Comp. No.	Name of the Company	Registered Office Address
1.	29796	M/s. Ashkaran Finlease Pvt. Ltd.	283, Pycrofts Road, Triplicane, Chennai-600005
2.	32782	M/s. Flexie Drive Equipments Ltd.	62/23, Manickam Mansion, Thayar Sahib Street, Chennai-600040
3.	34456	M/s. Janaksree Homes & Resorts Pvt. Ltd.	Plot No. 1697. V Street, H-Block Anna Nagar Chennai-600040

1	2	3	4
4.	41534	M/s. Kapur Infonet Solutions Pvt. Ltd.	13.2 nd Cross, Vaiapuri Nagar, Karur-639002
5.	42651	M/s. Akantitha Chits Pvt. Ltd.	Plot No. 1729, 21 st Main Road, Anna Nagar, Chennai-600040
6.	43014	M/s. Yogam Beachfarms (India) Pvt. Ltd.	AD-3, II Avenue, Blue Star, Anna Nagar Chennai-600004
7.	47419	M/s. Evermore Event Pvt. Ltd.	31-A/1, LUZ Church Road, Mylapore, Chennai-600004
8.	50251	M/s. Celestial Hotels Pvt. Ltd.	14, Valmiki Street, T. Nagar Chennai-600017
9.	52924	M/s. Metro Consumer-care Pvt. Ltd.	Rosy Tower, Ground Floor-7, Nungambakkam High Road, Chennai-600034

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 30th June 2005

No. 1419 to 41959/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	1419	M/s. Madras Swadesh Emporium Ltd.
2.	5984	M/s. Alfa Packaging Pvt. Ltd.
3.	6098	M/s. Mayura Fibres Pvt. Ltd.
4.	6267	M/s. Southern Alloy Foundries Exports Pvt. Ltd.

1	2	3
5.	16981	M/s. Pallavaram Permanent Fund Ltd.
6.	22033	M/s. Meena Karthik Chits Pvt. Ltd.
7.	22825	M/s. Heritage Financial Services Pvt. Ltd.
8.	27591	M/s. Mala Chits Pvt. Ltd.
9.	27901	M/s. Mala Credit Services Pvt. Ltd.
10.	27990	M/s. Karaneeswarar Benefit Fund Ltd.
11.	29870	M/s. Hotel Arunodaya Pvt. Ltd.
12.	30098	M/s. Sri Kaliswari Textiles Pvt. Ltd.
13.	31362	M/s. Prosperity Construction Company Ltd.
14.	32080	M/s. Patel India (Madras) Pvt. Ltd.
15.	32358	M/s. Sivaganga Spinning Mills Pvt. Ltd.
16.	32479	M/s. Vishesh Builders Ltd.
17.	32638	M/s. Jay-Kay-Cee Securities Pvt. Ltd.
18.	34216	M/s. Thambikottai Textiles Ltd.
19.	34865	M/s. Ideal Benefit Fund Ltd.
20.	35033	M/s. Tiruttani Vinayaga Benefit Fund Ltd.
21.	35508	M/s. Arcube Distribution and Consultancy Pvt. Ltd.
22.	39456	M/s. SKK Plasticom Pvt. Ltd.
23.	40198	M/s. Sri Iyyappa Auto Centre Pvt. Ltd.
24.	40497	M/s. Calcutta Home Needs Pvt. Ltd.
25.	40639	M/s. Indway Services Pvt. Ltd.
26.	41959	M/s. Future Point Infosys Pvt. Ltd.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Cosmos Promptech Private Limited

Pondicherry-605011, the 27th June 2005

No. 1301/560(5)/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cosmos Promptech Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and is dissolved.

M. K. ANNAN
Registrar of Companies
Pondicherry

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.